

Series EF1GH/5



SET~3

रोल नं. Roll No. प्रश्न–पत्र कोड Q.P. Code

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

निर्धारित समय: 3 घण्टे अधिकतम अंक : 80 Time allowed: 3 hours Maximum Marks: 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 39 हैं। (i) Please check that this question paper contains 39 printed pages.
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर (ii) लिखें ।
 - Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं। Please check that this question paper contains 34 questions.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। (iv) Please write down the serial number of the question in the answerbook before attempting it.
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



67/5/3 **257** C

Page 1

P.T.O.







सामान्य निर्देश:

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **34** प्रश्न हैं। **सभी** प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र **दो** भागों में विभाजित है **भाग क** तथा **भाग ख** /
- (iii) भाग क सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।
- (iv) भाग ख के दो विकल्प हैं -(I) वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तथा (II) अभिकलित्र लेखांकन ।
 परीक्षार्थियों को भाग ख में चयनित विषय के अनुसार केवल एक ही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर
 लिखने हैं।
- (v) प्रश्न संख्या 1 से 16 तथा 27 से 30 तक एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (vi) प्रश्न संख्या 17 से 20, 31 तथा 32 तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) प्रश्न संख्या **21, 22** तथा **33 चार-चार** अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न संख्या 23 से 26 तथा 34 छ:-छ: अंकों के प्रश्न हैं।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, **एक-एक** अंक के 7 प्रश्नों में, **तीन-तीन** अंकों के 2 प्रश्नों में, **चार-चार** अंकों के 1 प्रश्न में तथा **छ:-छ**: अंकों के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।

67/5/3 $\sim\sim\sim$ Page 2







General Instructions:

- (i) This question paper contains **34** questions. **All** questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into two parts Part A and Part B.
- (iii) **Part A** is compulsory for all candidates.
- (iv) Part B has two options i.e. (I) Analysis of Financial Statements and (II) Computerised Accounting. Candidates must attempt only one of the given options as per the subject opted.
- (v) Question Nos. 1 to 16 and 27 to 30 carries 1 mark each.
- (vi) Question Nos. 17 to 20, 31 and 32 carries 3 marks each.
- (vii) Question Nos. 21, 22, and 33 carries 4 marks each.
- (viii) Question Nos. 23 to 26 and 34 carries 6 marks each.
- (ix) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 7 questions of one mark, 2 questions of three marks, 1 question of four marks and 2 questions of six marks.

67/5/3 $\sim \sim \sim$ Page 3 P.T.O.







| | | (साझदारा फमा तथा कम्पानया के लिए लखाकन) | |
|----|------------|---|---|
| 1. | (a) | नीता तथा समर एक फर्म के साझेदार हैं तथा $3:2$ के अनुपात में लाभ−हानि बाँटते हैं । उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 90,000 तथा ₹ 2,10,000 थीं । उन्होंने 1 अप्रैल, 2022 को भविष्य में लाभ के $1/5$ वें भाग के लिए मिताली को एक नया साझेदार बनाया । मिताली अपनी पूँजी के लिए ₹ $1,50,000$ लाई । मिताली के प्रवेश पर फर्म की ख्याति का मूल्य होगा : (A) ₹ $3,00,000$ (B) ₹ $7,50,000$ (C) ₹ $1,50,000$ |] |
| | <i>a</i> > | अथवा | |
| | (b) | बीना तथा रिया साझेदार हैं तथा 5: 3 के अनुपात में लाभ बाँटती हैं। उन्होंने लाभ में 3/8वें भाग के लिए सिया को एक नया साझेदार बनाया, जिसका 2/8वाँ भाग उसने बीना से तथा 1/8वाँ भाग रिया से प्राप्त किया। बीना, रिया तथा सिया का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा: (A) 3:2:3 (C) 5:5:6 (D) 9:1:6 |] |
| 2. | | , सुमन तथा हरीश एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । सुमन फर्म व्रानिवृत्त हो गई । सुमन की सेवानिवृत्ति की तिथि को सुमन को ₹ 30,000 देय थे । शेष साझेदारों ने | |
| | | । लिया कि उसे यह भुगतान तीन वार्षिक किश्तों में पहले वर्ष की समाप्ति से प्रारम्भ करके किया | |
| | | ा। ₹ 30,000 का हस्तांतरण निम्न में से किस खाते में किया जायेगा ? |] |
| | (A) | सुमन का ऋण खाता | |
| | (B) | सुमन के निष्पादक का खाता | |
| | (C) | सुमन का बैंक खाता | |
| | (D) | सुमन का चालू खाता | |
| 3. | अभि | कथन (A) : साझेदारी ऐसे लोगों के मध्य संबंध है जो व्यवसाय का लाभ बाँटने के लिए सहमत हुए | |
| | | हैं जिसका संचालन सभी द्वारा अथवा सभी के लिए किसी एक द्वारा किया जा सकता है। |] |
| | कारण | ग (R) : यदि एक साझेदार समान प्रकृति का कोई व्यवसाय करता है तथा फर्म के साथ प्रतियोगिता | |
| | | करता है, तो वह उसका लेखा करेगा तथा व्यवसाय से अर्जित सभी लाभ का भुगतान फर्म को | |
| | | करेगा। | |
| | निम्न | लिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए : | |
| | (A) | दोनों (A) तथा (R) सही हैं । | |
| | (B) | दोनों (A) तथा (R) गलत हैं। | |
| | (C) | दोनों (A) तथा (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है। | |
| | (D) | दोनों (A) तथा (R) सही हैं तथा $(\mathrm{R}),~(\mathrm{A})$ की सही व्याख्या नहीं है । | |

67/5/3 Page 4






PART – A

(Accounting for Partnership Firms and Companies)

| | /3 | $\sim \sim \sim$ Page 5 P.7 | .O. |
|----|--------------|---|-----|
| | (D) | Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A). | |
| | (C) | Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A). | |
| | (B) | Both (A) and (R) are incorrect. | |
| | (A) | Both (A) and (R) are correct. | |
| | Cho | bose the correct option from the following: | |
| | Rea | them acting for all. ason (R): If a partner carries on any business of the same nature and competing with that of the firm, he/she shall account for and pay to the firm all profit made by him/her in that business. | 1 |
| 3. | Ass | ertion (A): Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all | 1 |
| | retin pay | o of 3:2:1. Suman retired from the firm. On the date of Suman's rement, ₹ 30,000 was due to her. The remaining partners decided to her in three yearly instalments starting from the end of the first year. 0,000 will be transferred to which of the following account: Suman's Loan Account (B) Suman's Executor's Accounts Suman's Bank Account (D) Suman's Current Account | 1 |
| | | a, Suman and Harish were partners in a firm sharing profits in the | |
| | | (A) 3:2:3 (C) 5:5:6 (B) 2:3:3 (D) 9:1:6 | |
| | (b) | Bina and Ria are partners sharing profits in the ratio of 5: 3. They admitted Siya as a new partner for 3/8 th share which she acquired 2/8 th from Bina and 1/8 th from Ria. The new profit sharing ratio of Bina, Ria and Siya will be: | 1 |
| | | \mathbf{OR} | |
| 1. | (a) | Nita and Samar are partners in a firm sharing profits in the ratio of $3:2$. Their fixed capitals were ₹ 90,000 and ₹ 2,10,000 respectively. They admitted Mitali on April 1, 2022 as a new partner for $1/5^{th}$ share in future profits. Mitali brought ₹ 1,50,000 as her capital. The value of goodwill of the firm on Mitali's admission was: (A) ₹ 3,00,000 (B) ₹ 7,50,000 (C) ₹ 1,50,000 | 1 |
| 4 | | | |







4. खुशी, निमता तथा मानवी एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 2 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 30 जून, 2022 को खुशी की मृत्यु हो गई । साझेदारी संलेख में प्रवाधान था कि किसी भी साझेदार की मृत्यु के समय मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसके भाग की गणना पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ में से ₹ 10,000 घटाकर की जायेगी ।

पिछले तीन वर्षों के लाभ थे:

| वर्ष समाप्ति | लाभ/हानि (₹) |
|----------------|--------------|
| 31 मार्च, 2020 | 1,20,000 |
| 31 मार्च, 2021 | (50,000) |
| 31 मार्च, 2022 | 1,70,000 |

मृत्यु की तिथि तक लाभ में खुशी का भाग था:

(A) ₹ 35,000

(B) ₹ 9,583

(C) ₹28,750

(D) ₹8,750

5. ₹ 10 के एक समता अंश जिस पर पूरी राशि माँग ली गई थी तथा जिस पर ₹ 6 का भुगतान किया गया, का शेष राशि का भुगतान न करने पर हरण कर लिया गया । इसे निम्न में से किस न्यूनतम मूल्य पर पुनःनिर्गमित किया जा सकता है ?

(A) ₹4

(B) ₹ 10

(C) ₹ 16

- (D) ₹ 6
- 6. सममूल्य पर निर्गमित ₹ 10 प्रत्येक के 200 समता अंशो का ₹ 3 प्रति अंश की प्रथम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया गया । ₹ 2 प्रति अंश की अन्तिम याचना अभी माँगी नहीं गई थी । हरण करने पर कितनी राशि की खतौनी अंश पूँजी के नाम पक्ष में की जायेगी ?

(A) ₹ 2,000

(B) ₹ 1,600

(C) ₹ 1,000

(D) ₹ 2,200

67/5/3 $\sim\sim\sim$ Page 6



1

1



4. Khushi, Namita and Manvi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 2 : 3. On 30th June, 2022, Khushi died. The partnership deed provided that on the death of a partner, her share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of last three years less ₹ 10,000.

Profits for the last three years were:

| Year ended | Profits/Loss (₹) |
|------------------|------------------|
| 31st March, 2020 | 1,20,000 |
| 31st March, 2021 | (50,000) |
| 31st March, 2022 | 1,70,000 |

Khushi's share of profit till the date of her death was:

(A) ₹ 35,000

(B) ₹ 9,583

(C) ₹ 28,750

- (D) ₹8,750
- 5. An equity share of ₹ 10 fully called up on which ₹ 6 has been paid was forfeited for the non-payment of the balance amount. At which of the following minimum price can it be reissued?
 - (A) ₹ 4

(B) ₹ 10

(C) ₹ 16

- (D) ₹ 6
- 6. 200 equity shares of ₹ 10 each issued at par were forfeited for non-payment of first call of ₹ 3 per share. Final call of ₹ 2 per share was not yet called. By which amount the share capital will be debited on forfeiture?
 - (A) ₹ 2,000

(B) ₹ 1,600

(C) ₹ 1,000

(D) $\mathbf{\xi}$ 2,200

67/5/3 Page 7 P.T.O.



1

1



7. इंदू, विजय तथा पवन एक फर्म के साझेदार थे तथा 4:3:3 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । 1 अप्रैल, 2022 से उन्होंने सुभाष को एक नया साझेदार बनाया । इंदू, विजय, पवन तथा सुभाष का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2:2 होगा । 31 मार्च, 2022 को उनके स्थिति विवरण का उद्धरण निम्न प्रकार से दिया गया है :

| देयताएँ | राशि (₹) | परिसम्पत्तियाँ | राशि (₹) |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| निवेश उतार-चढ़ाव संचय | 80,000 | निवेश (बाजार मूल्य ₹ 80,000) | 90,000 |

सुभाष के प्रवेश पर 'निवेश उतार-चढ़ाव संचय' का निम्न में से कौन सा लेखांकन सही होगा ?

रोजनामचा

| | विवरण | | नाम राशि | जमा राशि |
|-----|----------------------------|-----|----------|----------|
| | 199(0) | | (₹) | (₹) |
| (A) | निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता | नाम | 10,000 | |
| | पुनर्मूल्यांकन खाता | | | 10,000 |
| (B) | निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता | नाम | 80,000 | |
| | इंदू का पूँजी खाता | | | 32,000 |
| | विजय का पूँजी खाता | | | 24,000 |
| | पवन का पूँजी खाता | | | 24,000 |
| (C) | पुनर्मूल्यांकन खाता | नाम | 10,000 | |
| | निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता | | | 10,000 |
| (D) | निवेश उतार-चढ़ाव संचय खाता | नाम | 80,000 | |
| | निवेश खाता | | | 10,000 |
| | इंदू का पूँजी खाता | | | 28,000 |
| | विजय का पूँजी खाता | | | 21,000 |
| | पवन का पूँजी खाता | | | 21,000 |

- 8. (a) अमित, सुमित तथा कियारा साझेदार हैं तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं । सुमित को कमीशन देने के पश्चात शुद्ध लाभ पर 15% कमीशन देय है । कमीशन देने से पूर्व शुद्ध लाभ ₹ 9,20,000 है । सुमित को देय कमीशन होगा :
 - (A) ₹ 1,20,000

(B) ₹ 1,38,000

(C) ₹48,000

(D) ₹55,200

अथवा

67/5/3

~~~

Page 8

1



7. Indu, Vijay and Pawan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:3. They admitted Subhash into partnership with effect from 1<sup>st</sup> April, 2022. New profit sharing ratio among Indu, Vijay, Pawan and Subhash will be 3:3:2:2. An extract of their Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2022 is given below:

| Liabilities         | Amount (₹) | Assets                  | Amount (₹) |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| Investment          | 80,000     | Investments             | 90,000     |
| Fluctuation Reserve |            | (Market Value ₹ 80,000) |            |

Which of the following is the correct accounting treatment of 'investment fluctuation reserve' at the time of Subhash's admission?

## **JOURNAL**

|     | Particulars                        |                | Debit<br>Amt. (₹) | Credit<br>Amt. (₹) |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| (A) | Investment Fluctuation Reserve A/c | Dr.            | 10,000            |                    |
|     | To Revaluation A/c                 |                |                   | 10,000             |
| (B) | Investment Fluctuation Reserve A/c | $\mathrm{Dr}.$ | 80,000            |                    |
|     | To Indu's Capital A/c              |                |                   | 32,000             |
|     | To Vijay's Capital A/c             |                |                   | 24,000             |
|     | To Pawan's Capital A/c             |                |                   | 24,000             |
| (C) | Revaluation A/c                    | Dr.            | 10,000            |                    |
|     | To Investment Fluctuation Reser    | rve            |                   | 10,000             |
| (D) | Investment Fluctuation Reserve A/c | Dr.            | 80,000            |                    |
|     | To Investments A/c                 |                |                   | 10,000             |
|     | To Indu's Capital A/c              |                |                   | 28,000             |
|     | To Vijay's Capital A/c             |                |                   | 21,000             |
|     | To Pawan's Capital A/c             |                |                   | 21,000             |

- 8. (a) Amit, Sumit and Kiara are partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Sumit is entitled to a commission of 15% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is ₹ 9,20,000. The amount of commission payable to Sumit will be:
  - (A) ₹ 1,20,000

(B) ₹ 1,38,000

(C) ₹48,000

(D) ₹55,200

OR

67/5/3  $\sim \sim \sim$  Page 9 P.T.O.



1



(b) पी, क्यू तथा आर एक फर्म के साझेदार हैं तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं । 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनके खाते के जमा पक्ष में पूँजी पर ब्याज की खतौनी 5% प्रति वर्ष की जगह 10% प्रति वर्ष कर दी गई । उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 2,00,000;
 ₹ 1,00,000 तथा ₹ 50,000 थी । त्रुटि को सुधारने के लिए आवश्यक समायोजना प्रविष्टि होगी :

# रोज़नामचा

|     | विवरण              |     | नाम राशि | जमा राशि |
|-----|--------------------|-----|----------|----------|
|     | विवरण              |     | (₹)      | (₹)      |
| (A) | पी का चालू खाता    | नाम | 2,000    |          |
|     | क्यू का चालू खाता  |     |          | 1,000    |
|     | आर का चालू खाता    |     |          | 1,000    |
| (B) | पी का चालू खाता    | नाम | 3,000    |          |
|     | क्यू का चालू खाता  |     |          | 2,000    |
|     | आर का चालू खाता    |     |          | 1,000    |
| (C) | पी का पूँजी खाता   | नाम | 2,000    |          |
|     | क्यू का पूँजी खाता |     |          | 1,000    |
|     | आर का पूँजी खाता   |     |          | 1,000    |
| (D) | पी का पूँजी खाता   | नाम | 3,000    |          |
|     | क्यू का पूँजी खाता |     |          | 2,000    |
|     | आर का पूँजी खाता   |     |          | 1,000    |

निम्न काल्पनिक परिस्थिति को पढ़िये तथा इसके आधार पर प्रश्न सं.  $\mathbf{9}$  तथा  $\mathbf{10}$  का उत्तर दीजिए : नित्या, श्रेया तथा इशिता एक फर्म की साझेदार हैं । वे 5:3:2 के अनुपात में लाभ बाँटती हैं । उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः  $\mathbf{7}$  1,80,000;  $\mathbf{7}$  1,60,000 तथा  $\mathbf{7}$  2,00,000 हैं । 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में नित्या ने प्रत्येक तिमाही के अन्त में  $\mathbf{7}$ ,500 का आहरण किया ।

| 9. | साझेदारी संलेख में पूँजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देने का प्रावधान है। इशिता की पूँजी पर ब्याज की |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | राशि होगी:                                                                                          |

(A) ₹ 18,000

(B) ₹ 16,000

(C) ₹ 20,000

(D) ₹ 10,000

10. औसत महीनों की संख्या जिन पर आहरण पर ब्याज की गणना की जायेगी, होंगे :

(A) 3½ महीने

(B) 4½ महीने

(C) 7½ महीने

(D) 6 महीने

67/5/3

~~~

Page 10

1

1



(b) P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. For the year ended 31st March, 2022, interest on capital was credited to them @ 10% p.a. instead of 5% p.a. Their fixed capitals were ₹ 2,00,000; ₹ 1,00,000; ₹ 50,000 respectively. The necessary adjustment entry to rectify the error will be:

JOURNAL

| | Particulars | | Debit | Credit |
|-----|--------------------|-----|----------|----------|
| | Farticulars | | Amt. (₹) | Amt. (₹) |
| (A) | P's Current A/c | Dr. | 2,000 | |
| | To Q's Current A/c | | | 1,000 |
| | To R's Current A/c | | | 1,000 |
| (B) | P's Current A/c | Dr. | 3,000 | |
| | To Q's Current A/c | | | 2,000 |
| | To R's Current A/c | | | 1,000 |
| (C) | P's Capital A/c | Dr. | 2,000 | |
| | To Q's Capital A/c | | | 1,000 |
| | To R's Capital A/c | | | 1,000 |
| (D) | P's Capital A/c | Dr. | 3,000 | |
| | To Q's Capital A/c | | | 2,000 |
| | To R's Capital A/c | | | 1,000 |

Read the following hypothetical situation and answer Question Nos. 9 and 10 on the basis of the same.

Nitya, Shreya and Ishita are partners in a firm. They share profits in the ratio of 5 : 3 : 2. Their fixed capitals are ₹ 1,80,000; ₹ 1,60,000 and ₹ 2,00,000 respectively. For the year ending 31st March, 2022, Nitya withdrew ₹ 7,500 at the end of every quarter.

| 9. | The partnership deed provided that interest on capital will be allowed |
|----|--|
| | @ 10% p.a. The amount of interest on Ishita's capital will be: |

(A) ₹ 18,000

(B) ₹ 16,000

(C) ₹ 20,000

(D) ₹ 10,000

10. The average number of months for which interest on drawings will be calculated, will be:

(A) $3\frac{1}{2}$ months

(B) $4\frac{1}{2}$ months

(C) $7\frac{1}{2}$ months

Get More Learning Materials Here:

(D) 6 months

67/5/3 $\sim \sim \sim$ Page 11 P.T.O.

1

1



आयशा लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,10,000 अंशों का जिन्हें 20% प्रीमियम पर निर्गमित 11. (a) किया गया था, ₹ 2 प्रति अंश की प्रथम याचना तथा ₹ 3 प्रति अंश की अन्तिम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया । अंश हरण खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जायेगी :

(A) ₹ 5,50,000 (C) ₹ 2,20,000

₹ 7,70,000 (B)

₹ 5,00,000 (D)

अथवा

निम्न में से कौन सा कथन सही है ?

(A) एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के अंश मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय नहीं होते।

प्रदत्त पूँजी अभिदत्त पूँजी का वह भाग है जिसे माँगा गया है।

(C) संस्था के बहिर्नियमों में दी गई पुँजी से अधिक पूँजी कम्पनी एकत्रित नहीं कर सकती।

(D) पूँजी का वह नहीं माँगा गया भाग जिसे केवल कम्पनी के विघटन के समय ही माँगा जा सकता है, पूँजी संचय कहलाता है।

एल, एम तथा एन एक फर्म के साझेदार हैं तथा 5:3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते 12. (a) हैं । 1 अप्रैल. 2022 से उन्होंने लाभों को बराबर बाँटने का निर्णय किया । उस तिथि को सामान्य संचय में ₹ 2,00,000 का शेष था तथा लाभ-हानि खाते में ₹ 4,00,000 का जमा शेष था। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण उपरोक्त के लिए रोज़नामचा प्रविष्टि होगी:

रोज़नामचा

| | विवरण | | नाम राशि (₹) | जमा राशि (₹) |
|-----|-------------------|-----|--------------|--------------|
| (A) | सामान्य संचय खाता | नाम | 2,00,000 | |
| | लाभ-हानि खाता | | | 2,00,000 |
| (B) | एम का पूँजी खाता | नाम | 80,000 | |
| | एन का पूँजी खाता | नाम | 20,000 | |
| | एल का पूँजी खाता | | | 1,00,000 |
| (C) | सामान्य संचय खाता | नाम | 2,00,000 | |
| | लाभ-हानि खाता | नाम | 4,00,000 | |
| | एल का पूँजी खाता | | | 2,00,000 |
| | एम का पूँजी खाता | | | 2,00,000 |
| | एन का पूँजी खाता | | | 2,00,000 |
| (D) | सामान्य संचय खाता | नाम | 2,00,000 | |
| | लाभ-हानि खाता | नाम | 4,00,000 | |
| | एल का पूँजी खाता | | | 3,00,000 |
| | एम का पूँजी खाता | | | 1,80,000 |
| | एन का पूँजी खाता | | | 1,20,000 |

अथवा

67/5/3

Page 12





1

1



- 11. (a) Aysha Ltd. forfeited 1,10,000 shares of ₹ 10 each issued at 20% premium for the non-payment of first call of ₹ 2 per share and final call of ₹ 3 per share. Share Forfeited Account will be credited with:
 - (A) ₹ 5,50,000

(B) ₹ 7,70,000

(C) ₹ 2,20,000

(D) ₹ 5,00,000

OR

- (b) Which of the following statements is true?
 - (A) The shares of a public limited company are not freely transferable.
 - (B) Paid up capital is that part of the subscribed capital which has been called up.
 - (C) The company cannot raise more capital than the amount of capital as specified in the Memorandum of Association.
 - (D) The part of the uncalled capital which is called only in the event of winding up of the company is called Capital Reserve.
- 12. (a) L, M and N are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share profits equally with effect from 1st April, 2022. On that date, there was a balance of ₹ 2,00,000 in General Reserve and a credit balance of ₹ 4,00,000 in the Profit and Loss Account. The Journal Entry for the above on account of change in profit sharing ratio will be:

JOURNAL

| | 30 CIM ME | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|
| | Particulars | | Debit Amt. (₹) | Credit Amt. (₹) | |
| (A) | General Reserve A/c | Dr. | 2,00,000 | | |
| , , | To Profit and Loss A/c | | | 2,00,000 | |
| (B) | M's Capital A/c | Dr. | 80,000 | | |
| | N's Capital A/c | $\operatorname{Dr}.$ | 20,000 | | |
| | To L's Capital A/c | | | 1,00,000 | |
| (C) | General Reserve A/c | $\operatorname{Dr}.$ | 2,00,000 | | |
| | Profit and Loss A/c | $\operatorname{Dr}.$ | 4,00,000 | | |
| | To L's Capital A/c | | | 2,00,000 | |
| | To M's Capital A/c | | | 2,00,000 | |
| | To N's Capital A/c | | | 2,00,000 | |
| (D) | General Reserve A/c | $\operatorname{Dr}.$ | 2,00,000 | | |
| | Profit and Loss A/c | $\mathrm{Dr}.$ | 4,00,000 | | |
| | To L's Capital A/c | | | 3,00,000 | |
| | To M's Capital A/c | | | 1,80,000 | |
| | To N's Capital A/c | | | 1,20,000 | |

OR

67/5/3 $\sim \sim \sim$ Page 13 P.T.O.

CL



1

1



| 1 | |
|-----|--|
| (b) | एक्स, वाई तथा जैड साझेदार हैं तथा $2:3:1$ के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। 1 अप्रैल, |
| | 2022 से उन्होंने भविष्य में लाभों को $3:2:1$ के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। लाभ- |
| | हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय खातों में दर्ज न किए गए फर्नीचर का लेखा, लेखा |
| | पुस्तकों में निम्न प्रकार से किया जाएगा : |
| | (A) साझेदारों के पूँजी खातों के नाम पक्ष में खतौनी करके। |
| | (P) प्राचित्रांका कार्न के गए एथ में क्रांनी करते । |

- (B) पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष में खतौनी करके।
- (C) पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में खतौनी करके।
- (D) साझेदारों के पूँजी खातों के जमा पक्ष में खतौनी करके।
- 13. आदित्य, अभिनव तथा अंकित एक फर्म के साझेदार थे तथा 4:3:3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे।31 मार्च, 2022 को फर्म का विघटन हो गया। विघटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आदित्य की नियुक्ति की गई जिसके लिए उसे ₹ 42,000 का पारिश्रमिक देय था। आदित्य विघटन व्यय भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। विघटन पर वास्तविक व्यय ₹ 33,000 हुए, जिसका भुगतान आदित्य ने किया। आदित्य के पूँजी खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जानेवाली राशि होगी:
 - (A) ₹ 42,000

(B) ₹ 33,000

(C) ₹ 9,000

(D) ₹ 18,000

14. क, ख तथा ग की साझेदारी फर्म के विघटन के समय संचित लाभ ₹ 40,000 को निम्न में से किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा ?

(A) पुनर्मूल्यांकन खाता

(B) वसूली खाता

(C) साझेदारों के पूँजी खाते

(D) बैंक खाता

15. (a) ऐसे ऋणपत्र जिनका भुगतान एक विशिष्ट अविध की समाप्ति पर अथवा कम्पनी की जीवन अविध में एकमुश्त अथवा किश्तों में किया जाता है, इस रूप में जाने जाते हैं :

1

1

1

1

- (A) रक्षित ऋणपत्र
- (B) विशिष्ट कूपन दर ऋणपत्र
- (C) मोचनीय ऋणपत्र
- (D) परिवर्तनीय ऋणपत्र

अथवा

67/5/3 ~~~ Page 14





15.

X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2:1 with effect from 1st April, 2022. At the time of change of profit sharing ratio, unrecorded furniture will be recorded in the books of Accounts by :1 (A) Debiting it to Partners' Capital Account Debiting it to Revaluation Account Crediting it to Revaluation Account (D) Crediting it to Partners' Capital Account Aditya, Abhinav and Ankit were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:3. On 31st March, 2022, the firm was dissolved. Aditya was appointed to complete the dissolution process for which he was allowed a remuneration of ₹ 42,000. Aditya also agreed to bear dissolution expenses. Actual expenses on dissolution amounted to ₹ 33,000 which were paid by Aditya. Aditya's Capital Account will be credited by: 1 (A) ₹ 42,000 (B) ₹ 33,000 (C) ₹ 9,000 (D) ₹ 18,000 On dissolution of the partnership firm of A, B and C, the accumulated profits of ₹ 40,000 will be transferred to which of the following account? 1 (A) Revaluation Account Realisation Account (B) (C) Partners' Capital Accounts (D) Bank Account (a) The debentures which are payable on the expiry of a specified period either in lump-sum or in instalments during the life time of the 1 company are known as: (A) Secured debentures

Specific coupon rate debentures Redeemable debentures Convertible debentures

OR

67/5/3 Page 15 P.T.O.





(b) ऋणपत्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?

1

1

3

3

- (A) ऋणपत्रों का निर्गमन नगद किया जा सकता है।
- (B) ऋणपत्रों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता है।
- (C) ऋणपत्रों का निर्गमन संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है।
- (D) ऋणपत्रों का निर्गमन अधिमूल्य पर किया जा सकता है।
- 16. प्रीमियर ऑटो लिमिटेड ने आनंद लिमिटेड से ₹ 3,60,000 मूल्य की परिसम्पत्तियों का क्रय किया तथा क्रय मूल्य का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 11% ऋणपत्रों को 10% बहे पर निर्गमित करके किया। प्रीमियर ऑटो लिमिटेड के द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों की संख्या थी:

(A) 3,600

(B) 36,000

(C) 40,000

(D) 4,000

17. (a) तरुन, अभिषेक, कमल तथा विवेक एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । 31 मार्च, 2022 को कमल सेवानिवृत्त हो गया । तरुन, अभिषेक तथा विवेक ने भविष्य में लाभ बराबर-बराबर बाँटने का निर्णय किया । कमल की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 9,00,000 किया गया ।

अपनी गणना को स्पष्टता से दर्शाते हुए कमल की सेवानिवृत्ति पर ख्याति के लेखांकन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि कीजिए। यह निर्णय लिया गया है कि ख्याति को फर्म की पुस्तकों में दर्शाया नहीं जाएगा।

अथवा

(b) अतुल तथा गीता साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । ईरा को लाभ में 1/4वें भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया । ईरा अपनी पूँजी के रूप में ₹ 40,000 लाई । ख्याति, पिरसम्पित्तयों तथा देयताओं के पुनर्मूल्यांकन आदि से संबंधित सभी समायोजनों के पश्चात् अतुल तथा गीता की पूँजी क्रमशः ₹ 60,000 तथा ₹ 40,000 थी । यह सहमित हुई कि साझेदारों की पूँजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी ।

पुराने साझेदारों को भुगतान की जाने वाली अथवा उनके द्वारा लाई जाने वाली पूँजी की गणना कीजिए तथा इसके लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि/प्रविष्टियाँ कीजिए।

67/5/3

2222

Page 16

CLICK HERE >>>



(b) Which of the following statement is incorrect with respect to debentures?

1

- (A) Debentures can be issued for cash.
- (B) Debenture cannot be issued at discount.
- (C) Debentures can be issued as collateral security.
- (D) Debentures can be issued at premium.
- 16. Premier Auto Ltd. purchased assets of the value of ₹ 3,60,000 from Anand Ltd. and made the payment of purchase consideration by issuing 11% Debentures of ₹ 100 each at a discount of 10 %. The number of debentures issued by Premier Auto Ltd. were:

1

(A) 3,600

(B) 36,000

(C) 40,000

- (D) 4,000
- 17. (a) Tarun, Abhishek, Kamal and Vivek were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2:2. Kamal retired on 31st March, 2022. Tarun, Abhishek and Vivek decided to share future profits equally. On Kamal's retirement goodwill of the firm was valued at ₹ 9,00,000. Showing your working clearly, pass the necessary journal entry for treatment of goodwill on Kamal's retirement. It was decided not to show goodwill in the books of the firm.

3

OR

(b) Atul and Geeta were partners sharing profits in the ratio 3: 2. Ira was admitted into the firm for 1/4th share of profits. Ira brought ₹ 40,000 as her capital. The capitals of Atul and Geeta after all adjustments relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities etc. are ₹ 60,000 and ₹ 40,000 respectively. It is agreed that capitals should be according to the new profit sharing ratio.

Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partners. Pass the necessary journal entry/entries for the same.

3

67/5/3

~~~

Page 17

P.T.O.





18. आयुष तथा आरुषि साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । उन्होंने लाभ में 1/4वें भाग के लिए नवीन को एक साझेदार बनाया । फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के तीन वर्षों के क्रय के आधार पर करना था । फर्म का औसत शुद्ध लाभ ₹ 20,000 था । फर्म में ₹ 50,000 का पूँजी निवेश था तथा सामान्य प्रत्याय दर 10% थी । नवीन द्वारा लाये गए ख्याति प्रीमियम की राशि की गणना कीजिए ।

19. (a) आशा, दिशा तथा राघव एक फर्म के साझेदार थे तथा 2 : 3 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । साझेदारी समझौते के अनुसार राघव को ₹ 40,000 लाभ की गारंटी दी गई थी । 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 1,20,000 था ।

31 मार्च, 2022, को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

### अथवा

- (b) अखिल तथा निखिल साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ−हानि बाँटते थे । उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 1,00,000 तथा ₹ 80,000 थीं । पूँजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज की सहमित हुई । निखिल को ₹ 9,200 का वार्षिक वेतन दिया जाना था । वर्ष 2021-22 में पूँजी पर ब्याज की गणना से पूर्व परन्तु निखिल का वेतन लगाने के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 1,20,000 था ।
  - 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।
- 20. नीऑन लिमिटेड ने जैनिथ लिमिटेड की ₹ 18,00,000 की परिसम्पत्तियों तथा ₹ 2,00,000 की देयताओं का क्रय ₹ 15,00,000 के क्रय मूल्य पर किया । नीऑन लिमिटेड ने राशि के भुगतान के लिए ₹ 3,00,000 का एक विनिमय पत्र स्वीकार किया तथा शेष का निपटान ₹ 100 प्रत्येक के 10% ऋणपत्रों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित करके किया । नीऑन लिमिटेड की पुस्तकों में उपरोक्त लेनदेनों की आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

67/5/3  $\sim\sim\sim$  Page 18





3

3

3



Aayush and Aarushi are partners sharing profits and losses in the ratio of 3: 2. They admitted Naveen into partnership for 1/4th share. Goodwill of the firm was to be valued at three years' purchase of super profits. Average net profit of the firm was ₹ 20,000. Capital investment in the business was ₹ 50,000 and Normal Rate of Return was 10%. Calculate the amount of Goodwill premium brought by Naveen.

3

19. (a) Asha, Disha and Raghav were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3:1. According to the partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of ₹ 40,000 as his share of profits. The net profit for the year ended 31st March, 2022 amounted to ₹ 1,20,000.

> Prepare Profit and Loss Appropriation Account of the firm for the year ended 31st March, 2022.

3

## OR

(b) Akhil and Nikhil were partners sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. Their fixed capitals were ₹ 1,00,000 and ₹ 80,000 respectively. Interest on capital was agreed @ 6% p.a. Nikhil was to be allowed an annual salary of  $\stackrel{?}{\stackrel{?}{?}}$  9,200. During the year 2021-22, the net profit prior to the calculation of interest on capital but after charging Nikhil's salary amounted to ₹ 1,20,000.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account of the firm for the year ending 31st March, 2022.

3

Neon Ltd. purchased assets worth ₹ 18,00,000 and took over liabilities of ₹2,00,000 of Zenith Ltd. for a purchase consideration of ₹ 15,00,000. Neon Ltd. paid the amount by accepting a bill of exchange of ₹ 3,00,000 and the balance was settled by issuing 10% debentures of ₹ 100 each at a premium of 20%. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Neon Ltd.

3

67/5/3

Page 19

P.T.O.





- 21. शिव लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के समता अंशों में विभक्त ₹ 9,00,000 की अधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत है । कम्पनी ने 80,000 समता अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचीपत्र जारी किया । कम्पनी को 79,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । सभी याचनाएँ मांग ली गईं तथा प्राप्त हो गईं, केवल 4,000 अंशों के एक अंशधारक, अनु को छोड़कर जिसने ₹ 3 प्रति अंश की दूसरी तथा अन्तिम याचना का भुगतान नहीं किया । इन अंशों का हरण कर लिया गया ।
  - (a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार 'अंश पूँजी' को कम्पनी के स्थिति विवरण में दर्शाइए।
  - (b) इसी के लिए 'खातों के नोट्स' भी तैयार कीजिए।

22. पी, क्यू तथा आर पानी निकालने की मशीन का उत्पादन करने वाली एक फर्म के साझेदार थे। वे 2:2:1 के अनुपात में लाभ–हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था:

31 मार्च, 2022 को पी, क्यू तथा आर का स्थिति विवरण

| देयताएँ              | राशि     | परिसम्पत्तियाँ      | राशि     |
|----------------------|----------|---------------------|----------|
|                      | (₹)      |                     | (₹)      |
| पूँजी :              |          | संयन्त्र एवं मशीनरी | 1,25,000 |
| पी - 50,000          |          | भूमि तथा भवन        | 1,50,000 |
| क्यू - 1,25,000      |          | देनदार              | 40,000   |
| आर - <u>1,00,000</u> | 2,75,000 | स्टॉक               | 35,000   |
| सामान्य संचय         | 1,25,000 | बैंक में रोकड़      | 75,000   |
| विभिन्न लेनदार       | 25,000   |                     |          |
|                      | 4,25,000 |                     | 4,25,000 |

30 जून, 2022 को 'क्यू' की मृत्यु हो गई। साझेदारी संलेख के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारी निम्न के हकदार थे :

- (i) पूँजी पर 12% वार्षिक दर से ब्याज।
- (ii) ख्याति में उसके भाग के ₹ 12,000।
- (iii) मृत्यु की तिथि तक लाभ में उसका भाग जिसकी गणना विक्रय के आधार पर की जानी थी। 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 तक विक्रय ₹ 62,500 था। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का विक्रय तथा लाभ क्रमशः ₹ 5,00,000 तथा ₹ 1,25,000 था। उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए 'क्यू' का पूँजी खाता तैयार कीजिए।

67/5/3 ~~~ Page 20



4



- 21. Shiv Ltd. was registered with an authorised capital of ₹ 9,00,000 divided into equity shares of ₹ 10 each. The company issued a prospectus inviting applications for issuing 80,000 equity shares. The company received applications for 79,000 equity shares. All calls were made and duly received except the second and final call of ₹ 3 per share on 4,000 shares held by Anu. These shares were forfeited.
  - (a) Present the 'Share capital' in the Balance Sheet of the company as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013.
  - (b) Also prepare 'Notes to Accounts' for the same.

22. P, Q and R were partners in a water dispenser manufacturing firm. They were sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. On 31<sup>st</sup> March, 2022, their Balance Sheet was as follows:

Balance Sheet of P, Q and R as on 31st March, 2022

| Liabilities         | Amount (₹) | Assets              | Amount (₹) |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Capitals:           |            | Plant and Machinery | 1,25,000   |
| P – 50,000          |            | Land and Building   | 1,50,000   |
| Q - 1,25,000        |            | Debtors             | 40,000     |
| R – <u>1,00,000</u> | 2,75,000   | Stock               | 35,000     |
| General Reserve     | 1,25,000   | Cash at Bank        | 75,000     |
| Sundry Creditors    | 25,000     |                     |            |
|                     | 4,25,000   |                     | 4,25,000   |

Q died on 30<sup>th</sup> June, 2022. According to the partnership deed, his legal representatives were entitled to:

- (i) Interest on capital @ 12% p.a.
- (ii) ₹ 12,000 for his share of Goodwill.
- (iii) His share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of sales. The sales from 1<sup>st</sup> April, 2022 to 30<sup>th</sup> June, 2022 were ₹ 62,500. The sales and profits of the firm for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2022 was ₹ 5,00,000 and ₹ 1,25,000 respectively.

Prepare Q's Capital Account to be rendered to his legal representatives.

67/5/3 Page 21 P.T.O.



4



23. (a) वाणी लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था:

आवेदन तथा आबंटन पर – ₹ 4 प्रति अंश (₹ 1 प्रीमियम सहित)

प्रथम याचना पर \_ ₹ 4 प्रति अंश

दूसरी एवं अन्तिम याचना पर – ₹ 3 प्रति अंश

1,50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को आनुपातिक आधार पर आबंटन कर दिया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि का समायोजन याचनाओं पर देय राशि में कर लिया गया। एक अंशधारक, पार्थ, जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, ने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। दूसरी तथा अन्तिम याचना अभी तक माँगी नहीं गई थी। हरण किए गए अंशों में से आधे अंशों को ₹ 8 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमित कर दिया गया।

जहाँ आवश्यक हो अदत्त याचना खाता तथा पूर्वदत्त याचना खाता खोलकर उपरोक्त लेनदेनों के लिए वाणी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

### अथवा

- (b) निम्न परिस्थितियों में अंशों के हरण तथा हरण किए गए अंशों के पुनःनिर्गमन के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :
  - (i) विपिन लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 10,000 अंशों का जिन्हें ₹ 1 प्रित अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, ₹ 2 प्रित अंश की दूसरी तथा अन्तिम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। इन अंशों में से 60% अंशों को ₹ 7 प्रित अंश पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया गया।
  - (ii) दीपक लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 800 अंशों का जिन पर ₹ 8 प्रति अंश माँगे गए थे,
     ₹ 3 प्रति अंश की प्रथम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया । सभी हरण किए
     गए अंशों को ₹ 12 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया गया ।

67/5/3 ~~~ Page 22



6

3



23. (a) Vani Limited invited applications for issuing 1,00,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of 10%. The amounts were payable as under:

On Application and Allotment – ₹ 4 per share (including premium ₹1)

On first call – ₹ 4 per share

On second and final call – ₹ 3 per share

Applications for 1,50,000 shares were received and pro-rata allotment was made to all the applicants.

Excess application money was adjusted towards sums due on calls. Parth, a shareholder who had applied for 600 shares did not pay the first call. His shares were forfeited. The second and final call was not yet made. Half of the forfeited shares were reissued at ₹ 8 per share fully paid up.

Journalise the above transactions in the books of Vani Limited by opening calls in arrears and calls in advance account wherever necessary.

OR

- (b) Pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of forfeited shares in the following cases:
  - (i) Vipin Ltd. forfeited 10,000 shares of ₹ 10 each issued at a premium of ₹ 1 per share, for non-payment of second and final call of ₹ 2 per share. Out of these, 60% of the shares were reissued at ₹ 7 per share fully paid up.
  - (ii) Deepak Ltd. forfeited 800 shares of ₹ 10 each, ₹ 8 per share called up, for non-payment of first call of ₹ 3 per share. All the forfeited shares were reissued for ₹ 12 per share fully paid.

67/5/3 Page 23 P.T.O.





6

3



24. (a) कमल, राहुल तथा नीरज एक फर्म के साझेदार थे तथा 5:3:2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था:

31 मार्च, 2022 को कमल, राहुल तथा नीरज का स्थिति विवरण

| देयताएँ              | राशि<br>(₹) | परिसम्पत्तियाँ      | राशि<br>(₹) |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| पूँजी :              |             | भूमि तथा भवन        | 1,70,000    |
| कमल 1,20,000         |             | संयन्त्र तथा मशीनरी | 2,60,000    |
| राहुल 1,20,000       |             | स्टॉक               | 1,00,000    |
| नीरज <u>1,20,000</u> | 3,60,000    | देनदार              | 80,000      |
| सामान्य संचय         | 1,20,000    | नगद                 | 50,000      |
| विभिन्न लेनदार       | 1,80,000    |                     |             |
|                      | 6,60,000    |                     | 6,60,000    |

उपरोक्त तिथि को राहुल सेवानिवृत्त हो गया तथा निम्न शर्तों पर सहमति हुई :

- (i) फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 3,50,000 किया गया।
- (ii) विभिन्न लेनदारों में सम्मिलित ₹ 10,000 की एक मद थी जिसका दावा नहीं किया जानाथा। अतः अपलिखित कर दिया गया। स्टॉक का मूल्यांकन ₹ 90,000 किया गया।
- (iii) नई फर्म की पूँजी ₹ 2,10,000 निर्धारित की गई तथा इसका समायोजन शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में करना था । इसके लिए आवश्यकतानुसार रोकड़ लाई जायेगी अथवा इसका भुगतान किया जायेगा ।
- (iv) राहुल को देय राशि का हस्तांतरण उसके ऋण खाते में कर दिया जायेगा।
  राहुल की सेवानिवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

अथवा

67/5/3 ~~~ Page 24





24. (a) Kamal, Rahul and Neeraj were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 31st March, 2022, their Balance Sheet was as under:

Balance Sheet of Kamal, Rahul and Neeraj as on 31st March, 2022

| Liabilities            | Amount (₹) | Assets              | Amount (₹) |
|------------------------|------------|---------------------|------------|
| Capitals:              |            | Land and Building   | 1,70,000   |
| Kamal 1,20,000         |            | Plant and Machinery | 2,60,000   |
| Rahul 1,20,000         |            | Stock               | 1,00,000   |
| Neeraj <u>1,20,000</u> | 3,60,000   | Debtors             | 80,000     |
| General Reserve        | 1,20,000   | Cash                | 50,000     |
| Sundry Creditors       | 1,80,000   |                     |            |
|                        | 6,60,000   |                     | 6,60,000   |

On the above date, Rahul retired and following terms were agreed upon:

- (i) Goodwill of the firm was valued at ₹ 3,50,000.
- (ii) An item of ₹ 10,000 included in Sundry creditors is not likely to be claimed and hence written off. Stock was valued at ₹ 90,000.
- (iii) Capital of the new firm was fixed at ₹ 2,10,000 and the same will be adjusted in the profit sharing ratio of the remaining partners. For this purpose the required cash will be brought in or paid off as the case may be.
- (iv) Amount payable to Rahul will be transferred to his loan account.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts on Rahul's retirement.

OR

67/5/3  $\sim \sim \sim$  Page 25 P.T.O.





(b) आशीष तथा विशेष साझेदार थे तथा 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति 31 मार्च, 2022 को आशीष तथा विशेष का स्थिति विवरण विवरण निम्न था:

31 मार्च, 2022 को आशीष तथा विशेष का स्थिति विवरण

| देयताएँ               | सिश<br>(₹) | परिसम्पत्तियाँ                        | राशि<br>(₹) |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| लेनदार                | 30,000     | बैंक में नगद                          | 50,000      |
| अदत्त बिजली बिल       | 20,000     | देनदार 80,000                         |             |
| पूँजी :               |            | घटा : डूबत ऋणों के लिए प्रावधान 2,000 | 78,000      |
| आशीष 3,00,000         |            | स्टॉक                                 | 1,12,000    |
| विशेष <u>2,00,000</u> | 5,00,000   | मशीनरी                                | 3,00,000    |
|                       |            | लाभ-हानि खाता                         | 10,000      |
|                       | 5,50,000   |                                       | 5,50,000    |

1 अप्रैल, 2022 को लाभ में  $\frac{1}{4}$ वें भाग के लिए निम्न शर्तों पर मान्या को एक नया साझेदार बनाया गया :

- (i) मान्या अपनी पूँजी के लिए ₹ 1,00,000 तथा ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए₹ 50,000 नगद लाएगी ।
- (ii) अदत्त बिजली बिल का भुगतान कर दिया जायेगा ।
- (iii) स्टॉक का मूल्यांकन ₹ 12,000 अधिक पाया गया।

मान्या के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

6

67/5/3

 $\sim\sim\sim$ 

Page 26







(b) Ashish and Vishesh were partners sharing profits and losses in the ratio of 3: 2. Their Balance Sheet as at 31st March, 2022 was as under:

## Balance Sheet of Ashish and Vishesh as at 31st March, 2022

| Liabilities                  | Amount (₹) | Assets                             | Amount (₹) |
|------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Creditors                    | 30,000     | Cash at Bank                       | 50,000     |
| Outstanding electricity bill | 20,000     | Debtors 80,000 Less: provision for |            |
| Capitals:                    |            | bad debts <u>2,000</u>             | 78,000     |
| Ashish 3,00,000              |            | Stock                              | 1,12,000   |
| Vishesh <u>2,00,000</u>      | 5,00,000   | Machinery                          | 3,00,000   |
|                              |            | Profit and Loss A/c                | 10,000     |
|                              | 5,50,000   |                                    | 5,50,000   |

On  $1^{\rm st}$  April, 2022, Manya was admitted into the firm with  $1/4^{\rm th}$  share in the profits on the following terms :

- (i) Manya will bring ₹ 1,00,000 as her capital and ₹ 50,000 as her share of goodwill premium in cash.
- (ii) Outstanding electricity bill will be paid off.
- (iii) Stock was found over valued by ₹ 12,000.

Pass the necessary journal entries in the books of the firm on Manya's admission.

67/5/3  $\sim \sim \sim$  Page 27 P.T.O.





- 25. विभिन्न परिसम्पत्तियों (रोकड़ को छोड़कर) तथा तृतीय पक्ष देयताओं का वसूली खाते में हस्तांतरण करने के पश्चात् 31 मार्च, 2022 को कविता तथा सुमन की साझेदारी फर्म के विघटन पर हुए निम्न लेनदेनों के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :
  - (a) कविता ने ₹ 1,00,000 का स्टॉक ₹ 90,000 में ले लिया।
  - (b) ₹ 2,00,000 के लेनदारों ने ₹ 3,00,000 की संयंत्र एवं मशीनरी अपने दावे के पूर्ण निपटान में ले ली।
  - (c) ₹23,000 की एक परिसम्पत्ति को जिसका लेखा नहीं किया गया था, सुमन ने ₹ 17,000 में ले लिया।
  - (d) ₹ 2,000 वसूली व्ययों का भुगतान कविता ने किया।
  - (e) ₹ 21,000 के बैंक ऋण का भुगतान कर दिया गया।
  - (f) विघटन पर ₹ 7,000 की हानि हुई।

6

- 26. चिरंजीवी लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 2,000, 10% ऋणपत्रों का निर्गमन किया । निम्न स्थितियों में ऋणपत्रों के निर्गमन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :
  - (a) जब ऋणपत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया गया तथा इनका शोधन 5% के प्रीमियम पर करना है।
  - (b) जब ऋणपत्रों का निर्गमन 5% बट्टे पर किया गया तथा इनका शोधन 10% प्रीमियम पर करना है ।
  - (c) जब ऋणपत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया तथा इनका शोधन 10% प्रीमियम पर करना है ।  $oldsymbol{6}$

## भाग – ख

# विकल्प - I

# (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

- 27. एक्स लिमिटेड की चालू सम्पत्तियाँ ₹ 2,00,000 तथा चालू देयताएँ ₹ 1,50,000 हैं । यदि इसका कार्यशील पूँजी आवर्त अनुपात 6 गुना है, तो इसकी प्रचालन से आगम होगी :
  - (A) ₹ 2,00,000

(B) ₹ 3,00,000

(C) ₹ 2,50,000

(D) ₹ 1,50,000

67/5/3 ~~~ Page 28





- 25. Pass necessary Journal Entries for the following transactions, on the dissolution of a partnership firm of Kavita and Suman on 31<sup>st</sup> March, 2022, after the various assets (other than cash) and third party liabilities have been transferred to Realisation Account.
  - (a) Kavita took over stock amounting to ₹ 1,00,000 at ₹ 90,000.
  - (b) Creditors of ₹ 2,00,000 took over Plant and Machinery of ₹ 3,00,000 in full settlement of their claim.
  - (c) There was an unrecorded asset of ₹ 23,000 which was taken over by Suman at ₹ 17,000.
  - (d) Realisation expenses ₹ 2,000 were paid by Kavita.
  - (e) Bank loan ₹ 21,000 was paid off.
  - (f) Loss on dissolution amounted to 7,000.

6

- 26. Chiranjeevi Limited issued 2,000, 10% debentures of ₹ 100 each. Pass the necessary Journal entries for the issue of debentures in the following cases:
  - (a) When debentures were issued at 10% premium, redeemable at 5% premium.
  - (b) When debentures were issued at 5% discount, redeemable at 10% premium.
  - (c) When debentures were issued at par, redeemable at a premium of 10%.

# PART – B OPTION – I

# (Analysis of Financial Statements)

- 27. The current assets of X Ltd. are ₹ 2,00,000 and its current liabilities are ₹ 1,50,000. If, its working capital turnover ratio is 6 times, its revenue from operations will be:
  - (A) ₹ 2,00,000

(B) ₹ 3,00,000

(C) ₹ 2,50,000

(D) ₹ 1,50,000

67/5/3 Page 29 P.T.O.



| 28.  | (a)            | निम्न  | में से कौन से वित्तीय विवरण विश्लेषण                                   | के औज़                                              | ार (विधियाँ) नहीं है ?                          | 1 |
|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
|      |                | (i)    | रोकड़ प्रवाह विवरण                                                     | (ii)                                                | आय विवरण                                        |   |
|      |                | (iii)  | स्थिति विवरण                                                           | (iv)                                                | अनुपात विश्लेषण                                 |   |
|      |                | (A)    | (i) तथा (ii)                                                           | (B)                                                 | (ii) तथा (iv)                                   |   |
|      |                | (C)    | (ii) तथा (iii)                                                         | (D)                                                 | (iii) तथा (iv)                                  |   |
|      |                |        | अथव                                                                    | П                                                   |                                                 |   |
|      | (b)            | निम्न  | में से कौन सा कथन सही नहीं है ?                                        |                                                     |                                                 | 1 |
|      |                | (A)    | तरलता अनुपातों की गणना व्यवसाय                                         | की ल                                                | युकालीन शोधनक्षमता को मापने के लिए की           |   |
|      |                |        | जाती है ।                                                              |                                                     |                                                 |   |
|      |                | (B)    | चालू अनुपात को अम्ल जाँच अनुपात                                        | न के नाम                                            | से भी जाना जाता है ।                            |   |
|      |                | (C)    | ऋणशोधन अनुपातों की गणना व्यव                                           | त्रसाय द्वा                                         | रा दीर्घकाल में इसके ऋणों के भुगतान की          |   |
|      |                |        | क्षमता का निर्धारण करने के लिए की                                      |                                                     |                                                 |   |
|      |                | (D)    | स्वामित्व अनुपात स्वामियों की निधिय                                    | यों का शु                                           | द्ध / कुल परिसम्पत्तियों से सम्बंध दर्शाता है । |   |
| 20   | ( <del>)</del> |        |                                                                        | <del>-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -</del> | - <del> </del>                                  | - |
| 29.  |                |        |                                                                        | म स का                                              | न सी गतिविधियाँ प्रचालन गतिविधियाँ हैं ?        | 1 |
|      | (i)            |        | तियों पर प्राप्त लाभांश तथा ब्याज ।                                    |                                                     |                                                 |   |
|      | (ii)           |        | ारी हितलाभ व्ययों का भुगतान ।                                          |                                                     |                                                 |   |
|      | (iii)          |        | ी तथा शुल्क से प्राप्त नगदी ।<br>के राज्य के रिका अंग्लें का रिर्माण । |                                                     |                                                 |   |
|      | (iv)           |        | री के क्रय के लिए अंशों का निर्गमन।                                    | (D)                                                 | ('') (''') 7017 (')                             |   |
|      | (A)            |        | ii) तथा (iii)<br>::) तथा (:-)                                          | (B)                                                 | (ii), (iii) तथा (iv)                            |   |
|      | (C)            | (1), ( | ii) तथा (iv)                                                           | (D)                                                 | (ii) तथा (iii)                                  |   |
| 30.  | (a)            | निम्न  | में से कौन सा लेनदेन का परिणाम रोकड़                                   | इ प्रवाह                                            | नहीं होगा ?                                     | 1 |
|      |                | (A)    | मशीनरी का क्रय                                                         |                                                     |                                                 |   |
|      |                | (B)    | निवेशों का विक्रय                                                      |                                                     |                                                 |   |
|      |                | (C)    | समता अंशों के निर्गमन द्वारा मशीनरी                                    | का अधि                                              | ग्रहण                                           |   |
|      |                | (D)    | ऋणपत्रों का शोधन                                                       |                                                     |                                                 |   |
|      |                |        | अथव                                                                    | П                                                   |                                                 |   |
| 67/5 | 5/3            |        | ~~~ Pa                                                                 | age 30                                              | )                                               |   |
|      |                |        |                                                                        |                                                     |                                                 |   |

|      | o<br>Š |        |                                               |              |                                    |    |
|------|--------|--------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----|
| 28.  | (a)    | Whi    | ch of the following are r                     | not tools of | f Financial Analysis ?             | 1  |
|      |        | (i)    | Cash Flow Statement                           | (ii)         | Income Statement                   |    |
|      |        | (iii)  | Balance Sheet                                 | (iv)         | Ratio Analysis                     |    |
|      |        | (A)    | (i) and (ii)                                  | (B)          | (ii) and (iv)                      |    |
|      |        | (C)    | (ii) and (iii)                                | (D)          | (iii) and (iv)                     |    |
|      |        |        |                                               | OR           |                                    |    |
|      | (b)    | Whi    | ch one of the following s                     | statement    | is incorrect?                      | 1  |
|      |        | (A)    | Liquidity ratios are solvency of the business |              | d to measure the short term        |    |
|      |        | (B)    | Current ratio is also k                       | nown as A    | cid Test Ratio.                    |    |
|      |        | (C)    | Solvency ratios are ca                        | alculated    | to determine the ability of the    |    |
|      |        |        | business to service its                       | debt in th   | e long run.                        |    |
|      |        | (D)    |                                               |              | ne relationship of proprietor's    |    |
|      |        |        | funds to net assets / to                      | tal assets.  |                                    |    |
| 29.  | Whi    | ch of  | the following activities                      | are opera    | ting activities for the purpose of |    |
|      | prep   | aring  | g 'Cash flow statement'                       | ?            |                                    | 1  |
|      | (i)    | Divi   | dend and Interest recei                       | ved on sec   | curities.                          |    |
|      | (ii)   | Pay    | ment of employee benefi                       | it expense   | s.                                 |    |
|      | (iii)  | Cas    | h receipts from royalties                     | s and fees.  |                                    |    |
|      | (iv)   | Issu   | e of shares against purc                      | chase of m   | achinery.                          |    |
|      | (A)    | (i), ( | ii) and (iii)                                 | (B)          | (ii), (iii) and (iv)               |    |
|      | (C)    | (i), ( | ii) and (iv)                                  | (D)          | (ii) and (iii)                     |    |
| 30.  | (a)    | Whi    | ch of the following trans                     | saction wi   | ll result in no flow of cash ?     | 1  |
|      |        | (A)    | Purchase of machinery                         | 7            |                                    |    |
|      |        | (B)    | Sale of investments                           |              |                                    |    |
|      |        | (C)    | Acquisition of machine                        | ery by issu  | e of equity shares                 |    |
|      |        | (D)    | Redemption of debentu                         | ıres         |                                    |    |
|      |        |        |                                               | OR           |                                    |    |
| 67/5 | 5/3    |        | ~~~                                           | Page 31      | P.7                                | O. |



*P.T.O.* 



(b) रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किए जाने के उद्देश्य से स्तम्भ – II में दिए गए लेनदेनों को स्तम्भ – I में दी गई उनकी सही गतिविधियों से मिलान कीजिए :

स्तम्भ – I स्तम्भ – II

- (a) निवेश गतिविधि
- (i) ब्याज का भुगतान
- (b) वित्तीय गतिविधि
- (ii) ख्याति का क्रय
- (c) प्रचालन गतिविधि
- (iii) वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रोकड़
- (a) (b) (c)
- (A) (iii) (i) (ii)
- (B) (ii) (i) (iii)
- (C) (i) (iii) (ii)
- (D) (ii) (iii) (i)
- 31. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार निम्न मदों को कम्पनी के स्थिति विवरण में कौन से मुख्य शीर्षक तथा उप-शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा :
  - (a) खुदरा औज़ार
  - (b) अग्रिम याचना
  - (c) पूँजी संचय

3

1

32. 'यह स्थिति विवरण तथा लाभ-हानि विवरण की विभिन्न मदों के मध्य उचित संबंध स्थापित करके फर्म की वित्तीय ताकतों एवं कमजोरियों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है।' उपरोक्त कथन में प्रकाशित प्रक्रिया की पहचान कीजिए तथा इसके किन्हीं दो उद्देश्यों को उल्लेख कीजिए।

3

67/5/3  $\sim\sim\sim$  Page 32







(b) Match the transactions given in Column – II with their correct category given in Column – I for the purpose of preparation of 'Cash Flow Statement'.

Column - I Column - II (a) **Investing Activity** (i) Interest paid Purchase of Goodwill (b) Financing Activity (ii) (c) Operating Activity (iii) Cash receipts from sale of goods (a) (b) (c) (A) (iii) (i) (ii) (B) (ii) (i) (iii) (C) (i) (iii) (ii) (D) (ii) (iii) (i)

- 31. Under which heads and sub-heads the following items will appear in the Balance Sheet of Company as per Schedule III, Part-I of the Companies Act, 2013:
  - (a) Loose tools
  - (b) Calls-in-Advance
  - (c) Capital Reserve

32. 'It is the process of identifying the financial strengths and weaknesses of the firm by properly establishing relationships between the various items of the balance sheet and the statement of profit and loss'. Identify the process highlighted in the above statement and state its any two objectives.

67/5/3  $\sim \sim \sim$  Page 33 P.T.O.



3

3



33. (a) निम्न सूचना से आरम्भिक तथा अन्तिम स्टॉक की गणना कीजिए:

स्टॉक आवर्त्त अनुपात – 4 बार

सकल लाभ = प्रचालन से आगम का 20%

प्रचालन से आगम = ₹ 10,00,000

आरम्भिक स्टॉक, अन्तिम स्टॉक का 25% है।

अथवा

- (b) ज़ैड लिमिटेड का ऋण-समता अनुपात 2:1 है। कारण सिहत बताइए कि निम्न लेनदेनों से ऋण-समता अनुपात बढ़ेगा, घटेगा अथवा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा:
  - (i) ₹ 3,00,000, 9% ऋणपत्रों का समता अंशों में परिवर्तन।
  - (ii) देनदारों से ₹ 1,00,000 की नगद प्राप्ति ।
  - (iii) ₹ 10,00,000 के 11% ऋणपत्रों का शोधन।
  - (iv) ₹ 4,00,000 के माल का उधार क्रय।

34. निम्न काल्पनिक कथन को पढ़िए तथा उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

वर्ष 2019 में अदिति ने 'फिज्ज़ लिमिटेड' नाम का अपना स्टार्ट-अप शुरू किया । फिज्ज़ लिमिटेड एक जैविक जूस निकालने वाली इकाई है । स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण लगातार कई वर्षों से उसका लाभ बढ़ रहा है ।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फिज्ज़ लिमिटेड के स्थिति विवरण से निम्न सूचना उद्धिरत की गई :

|                            | 31 मार्च, 2022 | 31 मार्च, 2021 |
|----------------------------|----------------|----------------|
|                            | (₹)            | (₹)            |
| समता अंश पूँजी             | 90,00,000      | 60,00,000      |
| 11% ऋणपत्र                 | 30,00,000      | 50,00,000      |
| मशीनरी (लागत मूल्य पर)     | 28,00,000      | 20,00,000      |
| मशीनरी पर एकत्रित मूल्यहास | 90,000         | 60,000         |

67/5/3 ~~~ Page 34



4



33. (a) From the following information, calculate the value of opening and closing inventory:

Inventory Turnover Ratio – 4 times

Gross Profit = 20% on Revenue from operations

Revenue from operations = ₹ 10,00,000

Opening inventory is 25% of the inventory at the end.

OR

- (b) Debt-Equity Ratio of Z Ltd. is 2:1. State with reason whether the following transactions will improve, decline or will not change the debt-equity ratio:
  - (i) Conversion of ₹ 3,00,000, 9% debentures into equity shares.
  - (ii) Cash received from debtors ₹ 1,00,000.
  - (iii) Redemption of ₹ 10,00,000, 11% debentures.
  - (iv) Purchase of goods on credit ₹ 4,00,000.

4

6

4

34. Read the following hypothetical text and answer the questions given below on the basis of the same:

Aditi, initiated her start-up 'Fizz Ltd.' in 2019. 'Fizz Ltd.' is an organic juice extracting unit. Its profits are increasing year-after-year because of the increasing awareness towards health.

Following information has been extracted from the Balance Sheet of 'Fizz Ltd.' for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022:

|                             | 31st March, 2022 | 31st March, 2021 |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|
|                             | (₹)              | (₹)              |  |
| Equity Share Capital        | 90,00,000        | 60,00,000        |  |
| 11% Debentures              | 30,00,000        | 50,00,000        |  |
| Machinery (at cost)         | 28,00,000        | 20,00,000        |  |
| Accumulated Depreciation on |                  |                  |  |
| Machinery                   | 90,000           | 60,000           |  |

67/5/3  $\sim \sim \sim$  Page 35 P.T.O.





| $\sim$                |         |   |
|-----------------------|---------|---|
| अतिरिक्त              | ग्रना   | • |
| <i>&gt;11(11(</i> 4(1 | स्रुजना | • |

- वर्ष के दौरान ₹ 4,00,000 लागत की एक मशीन का विक्रय ₹ 30,000 के लाभ पर किया गया। (i)
- वर्ष में मशीनरी पर लगाया गया मूल्यहास ₹ 50,000 था।
- (iii) 11% ऋणपत्रों पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि ₹ 5,50,000 थी।
- (iv) समता अंशों पर ₹ 3,00,000 के लाभांश का भुगतान किया गया।
- ऋणपत्रों का शोधन 31 मार्च, 2022 को 10% प्रीमियम पर किया गया।

. 'फिज्ज़ लिमिटेड' की 'निवेश गतिविधियों' तथा 'वित्तीय गतिविधियों' से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए।

भाग – ख

|      |       |        | वि                                       | ाकल्प – II       |                                             |   |
|------|-------|--------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---|
|      |       |        | (अभिव                                    | म्मित्र लेखांव   | <b>ก</b> न)                                 |   |
| 27.  | (a)   | निम्न  | में से कौन सा आई–एफ कार्य (फं            | क्शन) का तव      | र्क (आरगुमैंट) नहीं है ?                    | 1 |
|      |       | (A)    | मूल्य-यदि-सत्य (वैल्यू-इफ-ट्र            | <u>(</u> )       |                                             |   |
|      |       | (B)    | मूल्य – जब – असत्य (वैल्यू –             | वेंन – फॉल्स     | )                                           |   |
|      |       | (C)    | मूल्य – यदि – असत्य (वैल्यू –            | इफ – फॉल्स       | ·)                                          |   |
|      |       | (D)    | तार्किक परीक्षा (लॉजिकल टेस्ट            | )                |                                             |   |
|      |       |        |                                          | अथवा             |                                             |   |
|      | (b)   | जब ए   | एक नयी वर्कबुक का सृजन किया <sup>ः</sup> | जाता है तो कि    | त्तनी रिक्त वर्कशीटें दिखाई देती हैं ?      | 1 |
|      |       | (A)    | तीन                                      | (B)              | चार                                         |   |
|      |       | (C)    | एक                                       | (D)              | दो                                          |   |
| 28.  | (a)   | एम ए   | स ऐक्सस में एक क्षेत्र (फील्ड) न         | ाम लिखने के      | लिए उपयोग किए जा सकने वाले अधिकतम           |   |
|      |       | समुच्च | वयों (करेक्टर्स) की संख्या है :          |                  |                                             | 1 |
|      |       | (A)    | 28                                       | (B)              | 32                                          |   |
|      |       | (C)    | 64                                       | (D)              | 104                                         |   |
|      |       | ٠ ,    |                                          | अथवा             |                                             |   |
|      | (b)   | _      | टि में निष्पादित की गई अन्तिम ब्रि       | भया को उलट       | ने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती |   |
|      |       | है ?   |                                          |                  |                                             | 1 |
|      |       | , ,    | अनडू                                     | (B)              |                                             |   |
|      |       | (C)    | पेस्ट                                    | (D)              | रोडू                                        |   |
| 29.  | ऐसे व | होड जि | नमें अक्षर (अल्फाबेटस्) अथवा र           | तंक्षेपाक्षर सम् | मेलित हों, कहलाते हैं :                     | 1 |
|      | (A)   | क्रमिव | क्र (सीक्वेंशियल) कोड्स                  |                  |                                             |   |
|      | (B)   | खण्ड   | (ब्लॉक) कोड्स                            |                  |                                             |   |
|      | (C)   | संख्य  | ा कोड्स                                  |                  |                                             |   |
|      | (D)   | स्मृति | सहायक (मनेमोनिक) कोड्स                   |                  |                                             |   |
| 67/5 | 5/3   |        | ~~~~                                     | Page 3           | 6                                           |   |



#### **Additional Information:**

- (i) During the year, a machine costing ₹ 4,00,000 was sold at a gain of ₹ 30,000.
- (ii) Depreciation charged on machinery during the year was ₹ 50,000.
- (iii) Interest paid on 11% debentures amounted to ₹ 5,50,000.
- (iv) Dividend of ₹ 3,00,000 was paid on equity shares.
- (v) Debentures were redeemed at a premium of 10% on 31<sup>st</sup> March, 2022. Calculate cash flows of 'Fizz Ltd.' from 'Investing Activities' and 'Financing Activities.'

### PART – B OPTION – II

#### (Computerised Accounting)

| 27.  | (a)                  | Whi   | ich of these is not a a                | irgument of th | ne IF function ?                | 1    |
|------|----------------------|-------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
|      |                      | (A)   | Value-if-true                          | (B)            | Value-when-false                |      |
|      |                      | (C)   | Value-if-false                         | (D)            | Logical test                    |      |
|      |                      |       |                                        | $\mathbf{OR}$  |                                 |      |
|      | (b)                  | Hov   | v many blank work                      | sheets are sh  | own when a new workbook is      |      |
|      |                      | crea  | ited?                                  |                |                                 | 1    |
|      |                      | (A)   | Three                                  | (B)            | Four                            |      |
|      |                      | (C)   | One                                    | (D)            | Two                             |      |
| 28.  | (a)                  |       | kimum number of cone in MS Access is : | haracters tha  | t can be used to write a field  | 1    |
|      |                      |       | 28                                     | (B)            | 32                              | 1    |
|      |                      | (A)   | 64                                     | (D)            | 104                             |      |
|      |                      | (C)   | 04                                     | OR             | 104                             |      |
|      | (h)                  | Whi   | ich of the following                   |                | owang the last action newformed |      |
|      | (b)                  |       | he worksheet?                          | commana rev    | erses the last action performed | 1    |
|      |                      |       |                                        | ( <b>D</b> )   | Cut                             | T    |
|      |                      | (A)   | Undo                                   | (B)            |                                 |      |
|      |                      | (C)   | Paste                                  | (D)            | Redo                            |      |
| 29.  | $\operatorname{Cod}$ | es co | mprising of alphabet                   | s or abbreviat | ion are known as                | 1    |
|      | (A)                  | Seq   | uential codes                          | (B)            | Block codes                     |      |
|      | (C)                  | Nur   | nber codes                             | (D)            | Mnemonic codes                  |      |
| 67/5 | 5/3                  |       | ~~~                                    | Page 37        | у.                              | Г.О. |



| 30. | निम्न | में से कौन सा पिवट टेबल का लाभ नहीं है ?                                                    | 1 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | (A)   | आँकड़ों का छाना जाना (निस्यंदन)                                                             |   |
|     | (B)   | उपभोक्ता मैत्रीपूर्ण                                                                        |   |
|     | (C)   | स्तम्भ को पंक्ति तथा पंक्ति को स्तम्भ में ले जाना                                           |   |
|     | (D)   | आँकड़ों की बड़ी मात्रा का सारांश नहीं कर सकता है।                                           |   |
|     |       |                                                                                             |   |
| 31. | लेखां | कन सूचना प्रणाली की निम्न उप-प्रणालियों को समझाइए :                                         |   |
|     | (a)   | क्रय एवं व्यापारिक देय उप-प्रणाली                                                           |   |
|     | (b)   | लागत लेखांकन उप-प्रणाली                                                                     | 3 |
|     |       |                                                                                             |   |
| 32. | 'सेल  | संदर्भ' का अर्थ दीजिए । 'सापेक्ष सेल संदर्भ' तथा 'संपूर्ण सेल संदर्भ' में अन्तर्भेद कीजिए । | 3 |
| 33. | (a)   | लेखांकन चक्र को परिभाषित कीजिए तथा एक लेखांकन चक्र में सम्मिलित अवस्थाओं को                 |   |
| 55. | (a)   | समझाइए                                                                                      | 4 |
|     |       | अ <b>थवा</b>                                                                                |   |
|     | (b)   | अभिकलित्र लेखांकन प्रणाली के सुरक्षात्मक कार्य के रूप में 'पासवर्ड सुरक्षा' तथा 'डाटा ऑडिट' |   |
|     |       | का अर्थ स्पष्ट कीजिए।                                                                       | 4 |
|     |       |                                                                                             |   |
| 34. |       | अशुद्धि का नाम बताइए जो तब प्रकट होती है जब सेल संदर्भ (रैफरेंस) वैध नहीं होता । उल्लेख     |   |
|     | कीजि  | ए कि यह अशुद्धि कैसे संशोधित की जा सकती है।                                                 | 6 |

67/5/3

 $\sim\sim\sim$ 

Page 38





| 30. | Whi | ch of the following is not the advantage of Pivot table?                                                            | 1 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | (A) | Filtering of data                                                                                                   |   |
|     | (B) | User-friendly                                                                                                       |   |
|     | (C) | Moving rows to columns and columns to rows                                                                          |   |
|     | (D) | Cannot summarise large amount of data                                                                               |   |
| 31. | Exp | lain the following sub-systems of Accounting Information System:                                                    |   |
|     | (a) | Purchase and Accounts payable sub-system                                                                            |   |
|     | (b) | Costing sub-system.                                                                                                 | 3 |
| 32. |     | e the meaning of 'Cell reference'. Differentiate between 'Relative Cell rence' and 'Absolute cell reference.'       | 3 |
| 33. | (a) | Define Accounting cycle and state the phases involved in an Accounting cycle.                                       | 4 |
|     |     | OR                                                                                                                  |   |
|     | (b) | Explain the meaning of 'Password Security' and 'Data Audit' as security features of Computerised Accounting System. | 4 |
| 34. |     | ne the error which appears when the cell reference is not valid. State this error can be corrected.                 | 6 |

67/5/3 ~~~ Page 39







67/5/3 **257C** ~~~

Page 40

#### MARKING SCHEME STRICTLY CONFIDENTIAL

### (FOR INTERNAL AND RESTRICTED USE ONLY) SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 2023

**SUBJECT NAME: ACCOUNTANCY (Subject Code 055)** 

QUESTION PAPER CODE 67/5/3

#### **General Instructions: -**

- You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully
- "Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."
- Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them.
- The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
- The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators
- Evaluators will mark( V) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right  $(\checkmark)$  while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
- If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the lefthand margin and encircled. This may be followed strictly

67/5/3 Page 1 of 20





- 8 If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly
- If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note "Extra Question".
- **10** No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
- **11** A full scale of marks **80** has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
- 12 Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines)
- 13 Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
  - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
  - Giving more marks for an answer than assigned to it.
  - Wrong totaling of marks awarded on an answer.
  - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
  - Wrong question wise totaling on the title page.
  - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
  - Wrong grand total.
  - Marks in words and figures not tallying/not same.
  - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
  - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
  - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
- 14 While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) marks
- Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
- 16 The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "Guidelines for spot Evaluation" before starting the actual evaluation.
- 17 Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
- 18 The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

67/5/3 Page 2 of 20





|   |             |                    | PART A                                          |        |                  |                  |                   |
|---|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|   |             |                    | (ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP FI                  | RMS A  | ND COMPANIES     | 5)               |                   |
|   |             |                    |                                                 |        |                  |                  |                   |
| 1 | (a)         | Q. Nita            | and Samar are partners                          |        |                  |                  | 1                 |
|   |             |                    |                                                 |        |                  |                  | mark              |
|   |             | Ans. (A            | ۸) ₹ 3,00,000                                   |        |                  |                  |                   |
|   |             | <u>OR</u>          |                                                 |        |                  |                  | <u>OR</u>         |
|   | 71.3        | O D'               | and B's an analysis                             |        |                  |                  |                   |
|   | (b)         | Q. Bina            | and Ria are partners                            |        |                  |                  | 1<br>mark         |
|   |             | Ans (A             | ·) 3:2:3                                        |        |                  |                  | IIIark            |
|   |             | A113. (/           | 3.2.3                                           |        |                  |                  |                   |
| 2 | Q. N        | Nita, Sur          | nan and Harish                                  |        |                  |                  |                   |
|   | ,           | •                  |                                                 |        |                  |                  | 1                 |
|   | Ans         | . (A) S            | Suman's Loan Account                            |        |                  |                  | mark              |
|   |             |                    |                                                 |        |                  |                  |                   |
| 3 | Q. A        | Assertio           | n (A): Partnership is the                       | •••••• |                  |                  |                   |
|   |             | (5) 5              |                                                 |        |                  | C ( A )          | 1 .               |
|   | Ans         | . (D) E            | Both (A) and (R) are correct and (R) is not the | ie cor | rect explanation | or (A)           | mark              |
| 4 | O. K        | (hushi, I          | Namita and Manvi were partners                  |        |                  |                  |                   |
| - | ζ           |                    | Talling and many transfer partitions            |        |                  |                  | 1                 |
|   | Ans         | . (D) <sup>3</sup> | ₹ 8,750                                         |        |                  |                  | mark              |
|   |             |                    |                                                 |        |                  |                  |                   |
| 5 | Q. <i>P</i> | An equit           | y share of                                      |        |                  |                  |                   |
|   |             |                    | <del>.</del> .                                  |        |                  |                  | 1                 |
|   | Ans         | . (A) <sup>3</sup> | ₹ 4                                             |        |                  |                  | mark              |
| 6 | 0 1         | 200 000            | ty shares of                                    |        |                  |                  |                   |
| 0 | Ų. 2        | oo equi            | ity shares or                                   |        |                  |                  | 1                 |
|   | Ans         | . (B) 🤻            | ₹ 1.600                                         |        |                  |                  | mark              |
|   | 7 11.10     | . (2)              | ( 2,000                                         |        |                  |                  | 1110111           |
| 7 | Q. I        | ndu, Vij           | ay and Pawan were partners                      | •••••  |                  |                  |                   |
|   |             |                    |                                                 |        |                  |                  |                   |
|   | Ans         | . (D)              |                                                 |        |                  |                  | 1                 |
|   |             |                    | JOURNAL                                         |        | 1                |                  | mark              |
|   |             | Date               | Particulars                                     | L.F.   | Dr.              | Cr.              |                   |
|   |             |                    |                                                 |        | Amount (₹)       | Amount (₹)       |                   |
|   |             |                    | Investment Fluctuation Reserve A/c Dr.          |        | 80,000           | 10 000           |                   |
|   |             |                    | To Investments A/c To Indu's Capital A/c        |        |                  | 10,000<br>28,000 |                   |
|   |             |                    | To Vijay's Capital A/c                          |        |                  | 21,000           |                   |
|   |             |                    | To Pawan's Capital A/c                          |        |                  | 21,000           |                   |
|   |             |                    |                                                 |        |                  | 21,000           |                   |
|   |             |                    |                                                 |        |                  |                  |                   |
| 8 | (a)         | Q. Ami             | t, Sumit and Kiara are partners                 | •••••• |                  |                  |                   |
|   | A           | /^\ <sup>=</sup>   | ₹1.20.000                                       |        |                  |                  | 1<br>mark         |
|   | ANS         | · (A) '            | ₹ 1,20,000<br><u>OR</u>                         |        |                  |                  | mark<br><i>OR</i> |
|   |             |                    | <u> </u>                                        |        |                  |                  | <u> </u>          |

67/5/3

Page **3** of **20** 

|    | <b>Ans.</b> (B) –                           |                                                                                                                                                                      |                                |          |                         |                                           |           |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------|
|    |                                             | I                                                                                                                                                                    | JOURNAL                        |          | _                       |                                           | 1         |
|    | Date                                        | Particulars                                                                                                                                                          |                                | L.F.     | Dr.<br>Amount (₹)       |                                           | mar       |
|    |                                             | P's Current A/c                                                                                                                                                      | Dr.                            |          | 3,000                   | <u>'</u>                                  |           |
|    |                                             | To Q's Current A/c                                                                                                                                                   |                                |          | ,                       | 2,000                                     |           |
|    |                                             | To R's Current A/c                                                                                                                                                   |                                |          |                         | 1,000                                     |           |
|    | Read the fo                                 | llowing hypothetical situati                                                                                                                                         | on                             | •••••    |                         |                                           |           |
| 9  | Q. The part                                 | nership deed provided                                                                                                                                                |                                |          |                         |                                           | 1         |
|    | <b>Ans.</b> (C) ₹                           | £ 20,000                                                                                                                                                             |                                |          |                         |                                           | mar       |
| LO | Q. The aver                                 | age number of months                                                                                                                                                 |                                |          |                         |                                           | 1         |
|    | <b>Ans.</b> (B) 4                           | 1½ months                                                                                                                                                            |                                |          |                         |                                           | mar       |
| l1 | (a) Q. Aysh                                 | a Ltd forfeited                                                                                                                                                      |                                |          |                         |                                           | 1<br>mar  |
|    | <b>A</b> ns. (A) ₹                          | ₹ 5,50,000                                                                                                                                                           |                                |          |                         |                                           |           |
|    |                                             |                                                                                                                                                                      | OR                             |          |                         |                                           | 0.0       |
|    |                                             |                                                                                                                                                                      | <u> </u>                       |          |                         |                                           | <u>OR</u> |
|    | (b) O Whic                                  | ch of the following statemer                                                                                                                                         | <del></del>                    |          |                         |                                           | <u>OR</u> |
|    | (b) Q. Whic                                 | ch of the following statemer                                                                                                                                         | <del></del>                    | ••••••   |                         |                                           | 1         |
|    | <b>Ans</b> . (C) T                          | he company cannot raise mo                                                                                                                                           | nts is true                    |          |                         | tal as specified                          | 1         |
|    | <b>Ans</b> . (C) T                          | _                                                                                                                                                                    | nts is true                    |          |                         | tal as specified                          | 1         |
|    | <b>Ans</b> . (C) Ti                         | he company cannot raise months the Memorandum of Associ                                                                                                              | nts is true<br>ore capital the |          |                         | tal as specified                          | 1         |
|    | <b>Ans</b> . (C) Ti                         | he company cannot raise mo                                                                                                                                           | nts is true<br>ore capital the |          |                         | tal as specified                          | 1         |
| 12 | <b>Ans</b> . (C) Ti                         | he company cannot raise months the Memorandum of Associ                                                                                                              | ore capital the                |          |                         | tal as specified                          |           |
| L2 | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D) | he company cannot raise months the Memorandum of Associand Nare partners                                                                                             | ore capital the ciation        | an the a | amount of capi          |                                           | 1         |
| 12 | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M             | he company cannot raise months the Memorandum of Associ                                                                                                              | ore capital the ciation        | an the a | amount of capi          | Cr.                                       | 1         |
| L2 | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D) | he company cannot raise months the Memorandum of Associand Nare partners                                                                                             | ore capital the ciation        | an the a | Dr.<br>Amount (₹)       |                                           | 1         |
| .2 | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D) | he company cannot raise months the Memorandum of Associand N are partners                                                                                            | ore capital the ciation        | an the a | Dr. Amount (₹) 2,00,000 | Cr.                                       | 1         |
| L2 | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D) | he company cannot raise months the Memorandum of Associand Nare partners                                                                                             | JOURNAL                        | an the a | Dr.<br>Amount (₹)       | Cr.<br>Amount (₹)                         | 1         |
| .2 | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D) | he company cannot raise months the Memorandum of Associand Nare partners  Particulars  General Reserve A/c Profit and Loss A/c To L's Capital A/c                    | JOURNAL                        | an the a | Dr. Amount (₹) 2,00,000 | Cr.<br>Amount (₹)                         | 1         |
| 2  | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D) | he company cannot raise months the Memorandum of Associand Nare partners                                                                                             | JOURNAL                        | an the a | Dr. Amount (₹) 2,00,000 | Cr.<br>Amount (₹)                         | 1<br>mar  |
| 2  | Ans. (C) T<br>ir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D) | he company cannot raise months the Memorandum of Associand Nare partners  Particulars  General Reserve A/c Profit and Loss A/c To L's Capital A/c To M's Capital A/c | JOURNAL                        | an the a | Dr. Amount (₹) 2,00,000 | Cr.<br>Amount (₹)<br>3,00,000<br>1,80,000 | 1<br>mar  |
| .2 | Ans. (C) Tir<br>(a) Q. L, M<br>Ans. (D)     | he company cannot raise months the Memorandum of Associand Nare partners  Particulars  General Reserve A/c Profit and Loss A/c To L's Capital A/c To M's Capital A/c | JOURNAL  Dr.  Dr.  Dr.         | an the a | Dr. Amount (₹) 2,00,000 | Cr.<br>Amount (₹)<br>3,00,000<br>1,80,000 | 1 mar     |

67/5/3 Page 4 of 20

| 13 | Q. Aditya, Al                                       | bhinav and Ankit were partners                                                  |          |                  |                    |           |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------|-----------|
|    | <b>Ans.</b> (A) ₹                                   | 42,000                                                                          |          |                  |                    | 1<br>mark |
| 14 | Q. On dissolu                                       | ution of the partnership firm                                                   |          |                  |                    |           |
|    | <b>Ans.</b> (C) – Pa                                | artners' Capital Accounts                                                       |          |                  |                    | 1<br>mark |
| 15 | (a) Q. The d                                        | ebentures which are                                                             |          |                  |                    | 1         |
|    | Ans. (C) Redeemable Debentures                      |                                                                                 |          |                  |                    | mark      |
|    | 751 (0)                                             | <u>OR</u>                                                                       |          |                  |                    | <u>OR</u> |
|    | // \ <b>~</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                                                 |          |                  |                    |           |
|    | (b) Q. Which                                        | n of the following statement is incorrect                                       | t        | ••••••           |                    | 1         |
|    | <b>Ans.</b> (B) De                                  | ebentures cannot be issued at discount                                          |          |                  |                    | mark      |
| 16 | Q. Premier A                                        | uto Ltd                                                                         |          |                  |                    |           |
|    | <b>Ans.</b> (D) 4                                   | 1.000                                                                           |          |                  |                    | 1<br>mark |
|    | . ,                                                 | ·                                                                               |          |                  |                    |           |
| 17 | (a) Q. Taru                                         | n, Abhishek, Kamal and Vivek were par                                           | tners    |                  | ••••               |           |
|    | Ans.                                                |                                                                                 |          |                  |                    |           |
|    |                                                     | Books of Tarun, Abhishek, F<br>JOURNAL                                          | (amal ar | nd Vivek         |                    |           |
|    | Date                                                | Particulars                                                                     | L.F.     | Dr.<br>Amount(₹) | Cr.<br>Amount(₹)   |           |
|    | 2022                                                | Abhishek's Capital A/c Dr.                                                      |          | 75,000           | -                  |           |
|    | March 31                                            | Vivek's Capital A/c Dr.                                                         |          | 1,50,000         | 1 50 000           |           |
|    |                                                     | To Kamal's Capital A/c To Tarun's Capital A/c                                   |          |                  | 1,50,000<br>75,000 | 1 ½       |
|    |                                                     | (adjustment for goodwill in gaining                                             |          |                  | , 3,000            |           |
|    |                                                     | ratio on Kamal's retirement)                                                    |          |                  |                    |           |
|    |                                                     | farun: Abhishek: Kamal: Vivek = 5:3:2:2<br>Farun: Abhishek: Vivek = 1:1:1       |          |                  |                    | +         |
|    | Gaining Shar                                        | e of Tarun = New Share – Old Shar<br>= $1/3 - 5/12$                             | е        |                  |                    |           |
|    | Gaining Shar                                        | = (-) 1/12 {sacrifice}<br>e of Abhishek = New Share – Old Share<br>= 1/3 – 3/12 |          |                  |                    | 1½        |
|    | Gaining Shar                                        | $= 1/12 \{gain\}$ e of Vivek = New Share – Old Share $= 1/3 - 2/12$             |          |                  |                    | = 3       |
|    | Kamal's shar                                        | = 2/12 <b>{gain}</b><br>e of Goodwill = 2/12 x 9,00,000 = ₹ 1,50                | .000     |                  |                    | marks     |

67/5/3 Page 5 of 20

| (b) Q. A     | Atul and Geeta were parti                                                                                                                                          | <u><i>OR</i></u><br>ners                                                                             |                       |           |                    | <u>OR</u> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
|              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                       |           |                    |           |
| Ans.         |                                                                                                                                                                    | Books of Atul and                                                                                    | Goota                 |           |                    |           |
|              |                                                                                                                                                                    | JOURNAL                                                                                              | Geeta                 |           |                    |           |
| Date         | Particulars                                                                                                                                                        |                                                                                                      | L.F.                  | Dr.       | Cr.                |           |
|              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                       | Amount(₹) | Amount(₹)          |           |
|              | Cash <b>or</b> Bank A/c                                                                                                                                            | Dr.                                                                                                  |                       | 20,000    |                    | 1 ½       |
|              | To Atul's Capital A/c                                                                                                                                              |                                                                                                      |                       |           | 12,000             |           |
|              | To Geeta's Capital A                                                                                                                                               |                                                                                                      |                       |           | 8,000              |           |
|              | (cash brought in by Atu                                                                                                                                            |                                                                                                      |                       |           |                    |           |
|              | capital adjustment on I                                                                                                                                            | a s admission)                                                                                       |                       |           |                    | +         |
| Workin       | <u>g</u>                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 1                     | l         |                    |           |
| -            | io = Atul : Geeta = 3:2                                                                                                                                            |                                                                                                      |                       |           |                    |           |
| Ira adm      | itted for 1/4 share                                                                                                                                                |                                                                                                      |                       |           |                    |           |
| Remain       | ing Share for Atul and Ge                                                                                                                                          | eta = 1-1/4 = 3/4                                                                                    |                       |           |                    |           |
|              | are of Atul = 3/5 x 3/4 =                                                                                                                                          | -                                                                                                    |                       |           |                    |           |
|              | are of Geeta = 2/5 x 3/4 =                                                                                                                                         |                                                                                                      |                       |           |                    |           |
| -            | itio = Atul : Geeta : Ira = 9:                                                                                                                                     |                                                                                                      | •                     |           |                    |           |
| rotal Ca     | apital of New Firm = ₹ 40,0                                                                                                                                        | JUU x 4 = ₹ 1,60,000<br>T                                                                            |                       |           | Gosta              |           |
|              |                                                                                                                                                                    | Amoi                                                                                                 | Atul<br>unt (₹)       | Δι        | Geeta<br>mount (₹) | 1 ½       |
|              | New Capital                                                                                                                                                        |                                                                                                      | 72,000                |           | 48,000             | 1 /2      |
|              | Less Existing Capital                                                                                                                                              |                                                                                                      | 60,000                |           | 40,000             | = 3       |
|              | Cash Brought In                                                                                                                                                    |                                                                                                      | 12,000                |           | 8,000              | mar       |
|              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                       |           |                    |           |
| Q. Aayı      | ush and Aarushi are partn                                                                                                                                          | ers                                                                                                  |                       |           |                    |           |
| Ans. A       | verage Net Profit = ₹ 20,00<br>ormal Profit = Normal Rat<br>ormal Profit = <u>10</u> x 50,000<br>100                                                               | 00<br>e of Return x Capita<br>0 = ₹5,000                                                             | al Empl               | •         | (1/2)              |           |
| Ans. A       | verage Net Profit = ₹ 20,00<br>ormal Profit = Normal Rat<br>ormal Profit = <u>10</u> x 50,000<br>100<br>uper Profit = Average Net                                  | 00<br>e of Return x Capita<br>0 = ₹5,000<br>Profit – Normal Pro                                      | al Empl               | •         | (1/2)              |           |
| Ans. Av      | verage Net Profit = ₹ 20,00<br>ormal Profit = Normal Rat<br>ormal Profit = <u>10</u> x 50,000<br>100<br>uper Profit = Average Net<br>= 20,000 - 5,00               | 00<br>e of Return x Capita<br>0 = ₹5,000<br>Profit – Normal Pro                                      | al Empl<br>           |           |                    |           |
| Ans. A       | verage Net Profit = ₹ 20,00<br>ormal Profit = Normal Rat<br>ormal Profit = <u>10</u> x 50,000<br>100<br>uper Profit = Average Net<br>= 20,000 - 5,00               | 00<br>e of Return x Capita<br>0 = ₹5,000<br>Profit – Normal Pro                                      | al Empl<br>           |           |                    |           |
| Ans. Av      | verage Net Profit = ₹ 20,00  ormal Profit = Normal Rat  ormal Profit = <u>10</u> x 50,000  100  uper Profit = Average Net  = 20,000 - 5,00  = ₹ 15,000             | 00<br>e of Return x Capita<br>0 = ₹5,000<br>Profit – Normal Pro<br>00<br>• Profit x Number o         | al Empl<br><br>ofit   |           | ( <b>1/2)</b>      |           |
| Ans. Av      | verage Net Profit = ₹ 20,00<br>ormal Profit = Normal Rat<br>ormal Profit = <u>10</u> x 50,000<br>100<br>uper Profit = Average Net<br>= 20,000 - 5,00<br>= ₹ 15,000 | oo<br>e of Return x Capita<br>D = ₹5,000<br>Profit – Normal Pro<br>Oo<br>Profit x Number of<br>0 x 3 | al Empl ofit f Years' | Purchase  | (1/2)              |           |
| Ans. And No. | verage Net Profit = ₹ 20,00<br>ormal Profit = Normal Rat<br>ormal Profit = <u>10</u> x 50,000<br>100<br>uper Profit = Average Net<br>= 20,000 - 5,00<br>= ₹ 15,000 | 00<br>e of Return x Capita<br>0 = ₹5,000<br>Profit – Normal Pro<br>00<br>• Profit x Number o         | al Empl ofit f Years' | Purchase  | (1/2)              | 3         |

67/5/3 Page 6 of 20

| Dugfit on                                                                                                                                                                                                                                        | d I aca A mmua                                            | writtian Assount                                                                                                    |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | priation Account<br>d 31 <sup>st</sup> March 2022                                                                   | Cr.            |               |
| Particulars                                                                                                                                                                                                                                      | Amount (₹)                                                |                                                                                                                     | Amount (₹)     |               |
| To Profit transferred to Partners'<br>Capital A/c                                                                                                                                                                                                |                                                           | By P&L A/c<br>(Net Profit) (1/2)                                                                                    | 1,20,000       |               |
| Asha 40,000 (-) guarantee to Raghav 8,000                                                                                                                                                                                                        | 32,000                                                    | (1/2)                                                                                                               |                |               |
| Disha 60,000                                                                                                                                                                                                                                     | 48,000                                                    | (4 (2)                                                                                                              |                |               |
| (-) guarantee to Raghav 12,000                                                                                                                                                                                                                   | 48,000                                                    | (1/2)                                                                                                               |                | 3             |
| Raghav 20,000                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                     |                | ma            |
| (+) guarantee from Asha 8,000<br>(+) guarantee from Disha 12,000                                                                                                                                                                                 | 40,000                                                    | (1 ½ )                                                                                                              |                |               |
| , , gala                                                                                                                                                                                                                                         | .5,555                                                    | 1 /                                                                                                                 | +              | 1             |
| b) Q. Akhil and Nikhil were partı                                                                                                                                                                                                                | 1,20,000  OR ners                                         |                                                                                                                     | 1,20,000       | <u>OR</u>     |
| Ans. Profit a                                                                                                                                                                                                                                    | OR ners                                                   | opriation Account                                                                                                   |                | <u>OR</u>     |
| Ans. Profit a                                                                                                                                                                                                                                    | OR ners nd Loss Appre                                     | opriation Account<br>31 <sup>st</sup> March 2022                                                                    | Cr.<br>Amount  | <u>OR</u>     |
| Ans. Profit a Dr. for the                                                                                                                                                                                                                        | OR<br>ners<br>nd Loss Appro<br>e year ended               | opriation Account<br>31 <sup>st</sup> March 2022                                                                    | Cr.            | <u>OR</u>     |
| Ans. Profit a  Dr. for the  Particulars                                                                                                                                                                                                          | OR ners nd Loss Appre                                     | opriation Account<br>31 <sup>st</sup> March 2022<br>Particulars                                                     | Cr.<br>Amount  | <u>OR</u>     |
| Ans.  Profit a  for the  Particulars  To Salary  Nikhil's Current A/c  (1/2)  To Interest on Capital                                                                                                                                             | OR  ners  nd Loss Appropriate year ended  Amount  (₹)     | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000                           | Cr. Amount (₹) | <u>OR</u>     |
| Ans.  Profit a  Dr. for the  Particulars  To Salary Nikhil's Current A/c 9,200 (1/2)  To Interest on Capital Akhil's Current A/c 6,000                                                                                                           | OR  ners  nd Loss Approper year ended  Amount (₹)  9,200  | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary 9,200 | Cr. Amount (₹) | <u>OR</u>     |
| Ans.  Profit a for the Particulars  To Salary Nikhil's Current A/c (1/2)  To Interest on Capital Akhil's Current A/c Nikhil's Current A/c 4,800                                                                                                  | OR  ners  nd Loss Appropriate year ended  Amount  (₹)     | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary 9,200 | Cr. Amount (₹) | <u>OR</u>     |
| Ans.  Profit a  Dr. for the Particulars  To Salary Nikhil's Current A/c 9,200 (1/2)  To Interest on Capital Akhil's Current A/c 6,000 Nikhil's Current A/c 4,800 (1)  To Profit transferred to Partners'                                         | OR  ners  nd Loss Approper year ended  Amount (₹)  9,200  | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary 9,200 | Cr. Amount (₹) | 3             |
| Ans.  Profit a  Dr. for the  Particulars  To Salary Nikhil's Current A/c 9,200 (1/2)  To Interest on Capital Akhil's Current A/c 6,000 Nikhil's Current A/c 4,800 (1)  To Profit transferred to Partners' Current A/c                            | OR  ners  nd Loss Approper year ended  Amount (₹)  9,200  | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary 9,200 | Cr. Amount (₹) | 3             |
| Ans.  Profit a  Dr. for the Particulars  To Salary Nikhil's Current A/c 9,200 (1/2)  To Interest on Capital Akhil's Current A/c 6,000 Nikhil's Current A/c 4,800 (1)  To Profit transferred to Partners' Current A/c Akhil 65,520                | OR ners  nd Loss Appropriate year ended Amount (₹)  9,200 | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary 9,200 | Cr. Amount (₹) | 3             |
| Ans.  Profit a  Dr. for the  Particulars  To Salary Nikhil's Current A/c 9,200 (1/2)  To Interest on Capital Akhil's Current A/c 6,000 Nikhil's Current A/c 4,800 (1)  To Profit transferred to Partners' Current A/c Akhil 65,520 Nikhil 43,680 | OR  ners  nd Loss Approper year ended  Amount (₹)  9,200  | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary 9,200 | Cr. Amount (₹) | 3             |
| Ans.  Profit a  Dr. for the Particulars  To Salary Nikhil's Current A/c 9,200 (1/2)  To Interest on Capital Akhil's Current A/c 6,000 Nikhil's Current A/c 4,800 (1)  To Profit transferred to Partners' Current A/c Akhil 65,520                | OR ners  nd Loss Appropriate year ended Amount (₹)  9,200 | opriation Account 31 <sup>st</sup> March 2022 Particulars  By P&L A/c Net Profit 1,20,000 (+) Nikhil's Salary 9,200 | Cr. Amount (₹) | OR<br>3<br>ma |

67/5/3 Page 7 of 20

|                   | Books of Neor<br>JOURNAL                                                                                                                                                |      |                  |                                   |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Date              | Particulars                                                                                                                                                             | L.F. | Dr.<br>Amount(₹) | Cr.<br>Amount(₹)                  |                       |
|                   | Assets A/c Dr.  To Liabilities A/c  To Zenith Ltd.  To Capital Reserve A/c  (business of Zenith Ltd. taken over at ₹ 15,00,000)                                         |      | 18,00,000        | 2,00,000<br>15,00,000<br>1,00,000 |                       |
|                   | Zenith Ltd. Dr.  To Bills Payable A/c (accepting a bill payable for ₹ 3,00,000)                                                                                         |      | 3,00,000         | 3,00,000                          |                       |
|                   | Zenith Ltd. Dr.  To 10% Debentures A/c  To Securities Premium A/c or  Securities Premium Reserve A/c  (10,000, 10% debentures of ₹ 100 each issued at a premium of 20%) |      | 12,00,000        | 10,00,000 2,00,000                | 1 x 3<br>= 3<br>marks |
| 1 Q. Shiv<br>Ans. | Ltd. was registered with an authorized cap  Books of Shiv  BALANCE SHEET as                                                                                             | Ltd. |                  |                                   |                       |
| I EQUI            | uiars<br>ITY AND LIABILITIES<br>nareholders' Funds<br>. Share Capital                                                                                                   |      | 1                | Amount (₹) 7,78,000               | 1                     |
|                   | s to Accounts: -                                                                                                                                                        | <br> |                  | Amount (₹)                        | +                     |
|                   | are Capital<br>horized Capital                                                                                                                                          |      |                  | , ,                               |                       |
| Issu              | 90,000 Equity Shares of ₹ 10 each ed Capital                                                                                                                            |      |                  | <u>9,00,000</u>                   | 1 +                   |
| Subs              | 80,000 Equity Shares of ₹ 10 each                                                                                                                                       |      |                  | 8,00,000                          | 1 +                   |
|                   | ubscribed and Fully Paid Up                                                                                                                                             |      |                  |                                   |                       |
|                   | 75,000 Equity Shares of ₹10 each                                                                                                                                        |      |                  | 7,50,000                          | 1/2                   |
|                   | Add: Share Forfeiture A/c                                                                                                                                               |      |                  | 28,000                            | 1/2 =<br>4            |
| 1 1               |                                                                                                                                                                         |      |                  | 7,78,000                          | 1                     |

67/5/3 Page 8 of 20



Q. P, Q and R were partners .....

Ans.

Dr.

#### **Q's Capital Account**

Cr.

| Particulars               | Amount   | Particulars               |                | Amount   |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|----------|
|                           | (₹)      |                           |                | (₹)      |
| To Q's                    | 1,97,000 | By Balance b/d            | (1/2)          | 1,25,000 |
| Legal Representatives A/c |          | By General Reserve A/c    | (1/2)          | 50,000   |
| (1/2)                     |          | By Interest on Capital A/ | c <b>(1/2)</b> | 3,750    |
|                           |          | By P's Capital A/         | (1/2)          | 8,000    |
|                           |          | By R's Capital A/c        | (1/2)          | 4,000    |
|                           |          | By P&L Suspense A/c       | (1)            | 6,250    |
|                           | 1,97,000 |                           |                | 1,97,000 |

marks

#### **Working Notes**

- Interest on Q's Capital = 1,25,000 x 12/100 x 3/12 = ₹ 3,750
- Q's Share of Profit =  $\underline{1,25,000}$  x 62,500 x  $\underline{2}$  = ₹ 6,250 5,00,000 5

Note – No marks for working notes

23 (a) Q. Vani Limited invited applications ......

Ans.

#### **Books of Vani Ltd. JOURNAL**

| Bank A/c D                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amount (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amount (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank A/c D                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , (x )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| To Equity Share Application & Allotment A/    | С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| application amount received on 1,50,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| chares)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Equity Share Application & Allotment A/c D    | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| To Equity Share Capital A/c                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| To Securities Premium A/c <i>or</i>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Securities Premium Reserve A/c                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| To Calls in Advance A/c                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| application amount transferred to equity      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hare capital, securities premium and calls in |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| advance)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Equity Share First Call A/c D                 | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| To Equity Share Capital A/c                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| first call amount due on 1,00,000 shares)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a<br>a<br>a<br>i<br>i<br>i                    | quity Share Application & Allotment A/c Draw To Equity Share Capital A/c To Securities Premium A/c or Securities Premium Reserve A/c To Calls in Advance A/c application amount transferred to equity hare capital, securities premium and calls in dvance)  quity Share First Call A/c To Equity Share Capital A/c | quity Share Application & Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium A/c or Securities Premium Reserve A/c To Calls in Advance A/c application amount transferred to equity hare capital, securities premium and calls in dvance)  quity Share First Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c | quity Share Application & Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium A/c or Securities Premium Reserve A/c To Calls in Advance A/c application amount transferred to equity hare capital, securities premium and calls in dvance)  quity Share First Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c | quity Share Application & Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium A/c or Securities Premium Reserve A/c To Calls in Advance A/c application amount transferred to equity hare capital, securities premium and calls in dvance)  quity Share First Call A/c To Equity Share Capital A/c  Allotment A/c Dr.  6,00,000  3,00,000  2,00,000  4,00,000  4,00,000 |

67/5/3 Page **9** of **20** 



| ·                                                                                                                                                                 |                     |                             |              | marks<br>OR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| capital reserve)                                                                                                                                                  |                     |                             |              | = 6         |
| Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (gain on 200 reissued shares transferre                                                                               | Dr.<br>ed to        | 600                         | 600          | 1           |
| Bank A/c Share Forfeiture A/c To Equity Share Capital A/c (reissue of 200 shares at ₹ 8 per share paid)                                                           | Dr.<br>Dr.<br>fully | 1,600<br>400                | 2,000        | 1 +         |
| Equity Share Capital A/c To Share Forfeiture A/c To Calls in Arrears A/c (400 shares forfeited due to non-paym first call)                                        | Dr.                 | 2,800                       | 2,000<br>800 | 1 +         |
| Bank A/c Calls in Advance A/c Calls in Arrears A/c To Equity Share First Call A/c (first call amount received, calls in advadjusted and calls in arrears debited) | Dr.<br>Dr.<br>Dr.   | 1,99,200<br>2,00,000<br>800 | 4,00,000     | 1 +         |

<u>OR</u>

(b) Q. Pass necessary journal entries .....

(i) Books of Vipin Ltd.
JOURNAL

| Date | Particulars                                     |     | L.F. | Dr.        | Cr.        |       |
|------|-------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|-------|
|      |                                                 |     |      | Amount (₹) | Amount (₹) |       |
|      | Equity Share Capital A/c Di                     | r.  |      | 1,00,000   |            |       |
|      | To Share Forfeiture A/c                         |     |      |            | 80,000     |       |
|      | To Calls in Arrears A/c <b>or</b>               |     |      |            | 20,000     |       |
|      | Share Second and Final Call A/c                 |     |      |            |            |       |
|      | (10,000 shares forfeited due to non-payment     | of  |      |            |            |       |
|      | second and final call of ₹ 2 per share)         |     |      |            |            |       |
|      | Bank A/c                                        | Dr. |      | 42,000     |            |       |
|      | Share Forfeiture A/c                            | r.  |      | 18,000     |            |       |
|      | To Equity Share Capital A/c                     |     |      |            | 60,000     |       |
|      | (reissue of 6,000 shares at ₹ 7 per share fully |     |      |            |            | 1 x 3 |
|      | paid)                                           |     |      |            |            | = 3   |
|      |                                                 |     |      |            |            | marks |
|      | Share Forfeiture A/c D                          | r.  |      | 30,000     |            |       |
|      | To Capital Reserve A/c                          |     |      |            | 30,000     |       |
|      | (gain on 6,000 reissued shares transferred to   |     |      |            |            |       |
|      | capital reserve)                                |     |      |            |            |       |
|      |                                                 |     |      |            |            |       |

67/5/3 Page 10 of 20





| (ii)                                  |                                                                                                      |                                                                                                |                                                   |                                                                           | Deepak Ltd.<br>RNAL                                                                                                                                                     |                        |                           |                                   |                                                                     |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Date                                  | Particu                                                                                              | ılars                                                                                          |                                                   | ,,,,                                                                      | 1                                                                                                                                                                       | L.F.                   | Amoun                     | Dr.<br>nt (₹)                     | Cr.<br>Amount (₹)                                                   |                       |
|                                       | To S<br>To C<br>SI<br>(800 sh                                                                        | y Share Cap<br>hare Forfeit<br>alls in Arrea<br>nare First Ca<br>nares forfeit<br>₹ 3 per shar | cure A/c<br>ars A/c <b>o</b> all A/c<br>ted due t | <b>r</b><br>to non-paymen                                                 | Dr.<br>t of first                                                                                                                                                       |                        |                           | 5,400                             | 4,000<br>2,400                                                      |                       |
|                                       | То                                                                                                   | Equity Share<br>Securities P<br>Securities P                                                   | remium<br>remium                                  | A/c <b>or</b><br>Reserve A/c                                              | Dr.                                                                                                                                                                     |                        | ğ                         | 9,600                             | 8,000<br>1,600                                                      | 4.1.2                 |
|                                       | Share                                                                                                |                                                                                                | <del>\</del> /c                                   | t₹12 per share                                                            | Dr.                                                                                                                                                                     |                        | 2                         | 1,000                             | 4,000                                                               | 1 x 3<br>= 3<br>marks |
|                                       |                                                                                                      | n 800 reissı                                                                                   | -                                                 | es transferred                                                            | to capital                                                                                                                                                              |                        |                           |                                   | 4,000                                                               | (3+3<br>= 6<br>marks) |
|                                       |                                                                                                      |                                                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                        |                           |                                   |                                                                     |                       |
| (a) Q.<br>Ar<br>Dr.                   |                                                                                                      | , Rahul an                                                                                     | d Neera                                           | aj were partne<br>Revalua                                                 | ers                                                                                                                                                                     |                        | ••••                      |                                   | Cr.                                                                 |                       |
| Ar                                    | ıs.                                                                                                  | , Rahul an                                                                                     | ı                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                         | t                      | ••••                      | A                                 | Cr.<br>mount (₹)                                                    |                       |
| Ar<br>Dr.                             | sulars                                                                                               | , Rahul an                                                                                     | ı                                                 | Revalua<br>Amount (₹)<br>10,000                                           | Particulars By Credito                                                                                                                                                  | t<br>s                 | (1/2)                     | A                                 | mount (₹)<br>10,000                                                 | 1                     |
| Ar<br>Dr.<br>Partic                   | sulars                                                                                               |                                                                                                | ı                                                 | Revalua<br>Amount (₹)                                                     | Particulars By Credito                                                                                                                                                  | t<br>s                 |                           | A                                 | mount (₹)                                                           | 1                     |
| Ar Dr. Partic To Sto                  | ulars<br>ock                                                                                         | 1/2)                                                                                           | F                                                 | Revalua Amount (₹) 10,000  10,000  Partners'                              | Particulars By Credito  Capital Acco                                                                                                                                    | t<br>s<br>rs           | (1/2)                     |                                   | mount (₹) 10,000  10,000  Cr.                                       | 1 +                   |
| Dr. Partic To Sto                     | ulars<br>ock                                                                                         |                                                                                                | Rah                                               | Revalua Amount (₹) 10,000  10,000  Partners'                              | Particulars By Credito                                                                                                                                                  | t<br>s<br>rs           | (1/2)                     | Aı<br>Rahu<br>(₹)                 | 10,000<br>10,000<br>Cr. I Neeraj                                    |                       |
| Dr. Particu  Dr. Particu  To Rah Capi | ulars ulars ulars ulars ulars ulars ul/s ital A/c (1/2)                                              | (/2)<br>Kamal                                                                                  | Rah                                               | Revalua Amount (₹) 10,000  10,000  Partners' nul Neeraj                   | Particulars By Credito  Capital Acco                                                                                                                                    | t<br>s<br>ors<br>ounts | (1/2)                     | Rahu                              | mount (₹) 10,000  10,000  Cr.  I Neeraj (₹)                         |                       |
| Dr. Particu To Rah Capi To Rah Loa    | ulars  ulars  ulars  ulars  ulars  ul's  ital A/c  (1/2)  nul's  an A/c  (1/2)                       | <b>(₹)</b>                                                                                     | Rah                                               | Revalua Amount (₹)  10,000  10,000  Partners' nul Neeraj ₹) (₹)  30,000   | Particulars  By Credito  Capital Acco Particulars  By balance b/d (1/2) By General Reserve A/c (1                                                                       | t<br>s<br>ounts        | (1/2)<br>S<br>Kamal       | Rahu<br>(₹                        | 10,000  10,000  Cr.    Neeraj (₹)   1,20,000                        |                       |
| Dr. Partice To Rah Capi To Rah Loa    | ulars  ulars  ulars  ulars  ulars  ul's  ital A/c  (1/2)  nul's  an A/c  (1/2)                       | <b>(₹)</b>                                                                                     | Rah (**                                           | Revalua Amount (₹)  10,000  10,000  Partners'  nul Neeraj  ₹) (₹)  30,000 | Particulars  By Credito  Capital Acco Particulars  By balance b/d (1/2) By General Reserve A/c (1 By Kamal's Capital A/c (1/2) By Neeraj's                              | t<br>s<br>ounts        | (1/2)  Kamal (₹) .,20,000 | Rahu<br>(₹)<br>1,20,000<br>36,000 | mount (₹)  10,000  10,000  Cr.    Neeraj   (₹)   1,20,000    24,000 |                       |
| Dr. Particu To Sto                    | ulars  ulars  ulars  ulars  ulars  ulars  ul's  ital A/c  (1/2)  nul's  an A/c  (1/2)  sh A/c  (1/2) | <b>(₹)</b>                                                                                     | Rah (**                                           | Revalua Amount (₹)  10,000  10,000  Partners'  nul Neeraj  ₹) (₹)  30,000 | Particulars By Credito  Capital Acco Particulars  By balance b/d (1/2) By General Reserve A/c (1 By Kamal's Capital A/c (1/2) By Neeraj's Capital A/c (1/2) By Cash A/c | t s                    | (1/2)  Kamal (₹) .,20,000 | Rahu<br>(₹)<br>1,20,000           | mount (₹)  10,000  10,000  Cr.    Neeraj   (₹)   1,20,000    24,000 | +                     |
| Dr. Partice To Rah Capi To Rah Loa    | ulars ock ulars oul's ital A/c (1/2) oul's an A/c (1/2) sh A/c (1/2)                                 | <b>(₹)</b>                                                                                     | Rah (**                                           | Revalua Amount (₹)  10,000  10,000  Partners'  nul Neeraj  ₹) (₹)  30,000 | Particulars  By Credito  Capital Accord  Particulars  By balance b/d (1/2  By General Reserve A/c (1  By Kamal's Capital A/c (1/2  By Neeraj's Capital A/c (1/2)        | t s                    | (1/2)  Kamal (₹) ,,20,000 | Rahu<br>(₹)<br>1,20,000<br>36,000 | mount (₹)  10,000  10,000  Cr.    Neeraj   (₹)   1,20,000    24,000 | +                     |

67/5/3 Page 11 of 20



<u>OR</u>

(b) Q. Ashish and Vishesh were partners ......

Ans.

# Books of Ashish and Vishesh JOURNAL

| Date               | Particulars                                                                                                                                                               | L.F. | Dr.<br>Amount (₹) | Cr.<br>Amount (₹)  |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2022<br>April<br>1 | Cash <i>or</i> Bank A/c Dr.  To Manya's Capital A/c  To Premium for Goodwill A/c  (capital and premium for goodwill amount brought by Manya)                              |      | 1,50,000          | 1,00,000<br>50,000 |                       |
| n                  | Premium for Goodwill A/c Dr. To Ashish's Capital A/c To Vishesh's Capital A/c (premium for goodwill amount distributed between sacrificing partners in sacrificing ratio) |      | 50,000            | 30,000<br>20,000   |                       |
| n                  | Outstanding Electricity Bill A/c Dr. To Cash <i>or</i> Bank A/c (outstanding electricity bill paid off)                                                                   |      | 20,000            | 20,000             |                       |
| n                  | Revaluation A/c Dr.  To Stock A/c (value of stock reduced by ₹ 12,000)                                                                                                    |      | 12,000            | 12,000             |                       |
| n                  | Ashish's Capital A/c Dr. Vishesh's Capital A/c Dr. To Revaluation A/c (loss on revaluation distributed between old partners in old ratio)                                 |      | 7,200<br>4,800    | 12,000             |                       |
| "                  | Ashish's Capital A/c Dr. Vishesh's Capital A/c Dr. To Profit and Loss A/c (existing loss distributed between old partners in old ratio)                                   |      | 6,000<br>4,000    | 10,000             | 1 x 6<br>= 6<br>marks |

67/5/3 Page 12 of 20



25

#### **Books of Kavita and Suman**

#### **JOURNAL**

| Date          |     | Particulars                                                                                                                                    | L.F. | Dr.            | Cr.        |                |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------------|
|               |     |                                                                                                                                                |      | Amount (₹)     | Amount (₹) |                |
| 2022<br>March | (a) | Kavita's Capital A/c Dr To Realisation A/c                                                                                                     |      | 90,000         | 90,000     |                |
| 31            |     | (stock taken over by Kavita at ₹ 90,000)                                                                                                       |      |                |            |                |
| "             | (b) | No Entry                                                                                                                                       |      | -              | -          |                |
| "             | (c) | Suman's Capital A/c Dr. To Realisation A/c (unrecorded asset taken over by Suman at ₹ 17,000)                                                  |      | 17,000         | 17,000     |                |
| "             | (d) | Realisation A/c Dr. To Kavita's Capital A/c (realization expenses ₹ 2,000 paid by Kavita)                                                      |      | 2,000          | 2,000      |                |
| "             | (e) | Realisation A/c Dr. To Bank A/c (bank loan of ₹ 21,000 paid off)                                                                               |      | 21,000         | 21,000     |                |
| "             | (f) | Kavita's Capital A/c Dr Suman's Capital A/c Dr To Realisation A/c (loss on dissolution transferred to partners' capital accounts in old ratio) |      | 3,500<br>3,500 | 7,000      | 1 x<br>=<br>ma |

26 Q. Chiranjeevi Limited issued ......

Ans.

## Books of Chiranjeevi Ltd. JOURNAL

| Date | Particulars                                                                   | L.F. | Dr.        | Cr.        | ì |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---|
|      |                                                                               |      | Amount (₹) | Amount (₹) | ì |
|      | a) Bank A/c Dr.                                                               |      | 2,20,000   |            | ì |
|      | To Debenture Application & Allotment A/c (application money received on 2,000 |      |            | 2,20,000   |   |
|      | debentures)                                                                   |      |            |            |   |
|      |                                                                               |      |            |            | ı |

67/5/3 Page 13 of 20



|   | Debenture Application & Allotment A/c Dr.      | 2,20,000 |          |      |
|---|------------------------------------------------|----------|----------|------|
|   | Loss on Issue of Debentures A/c Dr.            | 10,000   | 2 00 000 |      |
|   | To 10% Debentures A/c                          |          | 2,00,000 |      |
|   | To Securities Premium <i>or</i>                |          | 20,000   |      |
|   | Securities Premium Reserve A/c                 |          |          |      |
|   | To Premium on Redemption of Debentures A/c     |          | 10,000   |      |
|   | (application money transferred to debentures   |          |          |      |
|   | a/c, securities premium a/c and provision for  |          |          |      |
|   | premium on redemption of debentures made)      |          |          |      |
|   | <b>b)</b> Bank A/c Dr.                         | 1,90,000 |          |      |
|   | To Debenture Application & Allotment A/c       |          | 1,90,000 |      |
|   | (application money received on 2,000           |          | , ,      |      |
|   | debentures)                                    |          |          |      |
|   | Debenture Application & Allotment A/c Dr.      | 1,90,000 |          |      |
|   | Loss on Issue of Debentures A/c Dr.            | 30,000   |          |      |
|   | To 10% Debentures A/c                          |          | 2,00,000 |      |
|   | To Premium on Redemption of Debentures A/c     |          | 20,000   |      |
|   | (application money transferred to debentures   |          |          |      |
|   | a/c and provision for premium on redemption    |          |          |      |
|   | of debentures made)                            |          |          |      |
|   | Note – Full credit to be given if student has  |          |          |      |
|   | debited Discount on Issue of Debenture Account |          |          |      |
|   | and Loss on Issue of Debenture Account         |          |          |      |
|   | separately.                                    |          |          |      |
|   | c) Bank A/c Dr.                                | 2,00,000 |          |      |
|   | To Debenture Application & Allotment A/c       |          | 2,00,000 |      |
|   | (application money received on 2,000           |          |          |      |
|   | debentures)                                    |          |          |      |
|   | Debenture Application & Allotment A/c Dr.      | 2,00,000 |          |      |
|   | Loss on Issue of Debentures A/c Dr.            | 20,000   |          | 1 x  |
|   | To 10% Debentures A/c                          |          | 2,00,000 | = 6  |
|   | To Premium on Redemption of Debentures A/c     |          | 20,000   | ma   |
|   | (application money transferred to debentures   |          |          | 1110 |
| 1 | a/c and provision for premium on redemption    |          |          |      |
|   |                                                |          |          |      |

67/5/3 Page 14 of 20



|    |          |                                         | PART B<br>OPTION - I         |                           |           |  |  |
|----|----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|--|--|
|    |          | (ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS)      |                              |                           |           |  |  |
|    |          | ·<br>                                   |                              | •                         |           |  |  |
| 27 | Q. The   | e current assets of X Ltd               | ••••••                       |                           | 1         |  |  |
|    | Ans. (E  | 3) ₹ 3,00,000                           |                              |                           | mark      |  |  |
| 28 |          | Which of the following are no           | t tools                      |                           | 1<br>mark |  |  |
|    | Ar       | <b>s.</b> (C) (ii) and (iii)            | OB                           |                           | OB        |  |  |
|    |          |                                         | <u>OR</u>                    |                           | <u>OR</u> |  |  |
|    | (b) Q.   | Which one of the following st           | atement                      |                           | 1         |  |  |
|    | _        | (5)                                     |                              |                           | mark      |  |  |
|    | Ar       | <b>s</b> . (B) Current ratio is also kn | own as Acid Test Ratio       |                           |           |  |  |
| 29 | Q. Wł    | nich of the following activities a      | are operating                |                           | 1         |  |  |
|    |          | 5) (**) 1 (***)                         |                              |                           | mark      |  |  |
|    | Ans. (L  | D) – (ii) and (iii)                     |                              |                           |           |  |  |
| 30 | (a) Q.   | Which of the following transa           | ction will result            | •••••                     |           |  |  |
|    |          | (-)                                     |                              |                           | 1 .       |  |  |
|    | Ar       | <b>s</b> . (C) Acquisition of machine   | ry by issue of equity shares | ;                         | mark      |  |  |
|    |          |                                         | <u>OR</u>                    |                           | <u>OR</u> |  |  |
|    | (b) Q.   | Match the transactions given .          |                              |                           |           |  |  |
|    |          |                                         |                              |                           | 1         |  |  |
|    | Ar       | (a) (b) (c) (ii) (i) (iii)              |                              |                           | mark      |  |  |
|    |          | (II) (I) (III)                          |                              |                           |           |  |  |
| 31 | Q. Un    | der which heads and sub heads           | S                            |                           |           |  |  |
|    | Ans.     |                                         |                              |                           |           |  |  |
|    | Alls.    |                                         |                              |                           |           |  |  |
|    | S.N.     | Item                                    | Major Head                   | Sub Head                  | 1/2       |  |  |
|    | а        | Loose Tools                             | Current Assets               | Inventories               | X         |  |  |
|    | b        | Calls in Advance                        | Current Liabilities          | Other Current Liabilities | 6<br>= 3  |  |  |
|    | С        | Capital Reserve                         | Shareholders' Funds          | Reserves and Surplus      | marks     |  |  |
|    |          |                                         |                              |                           |           |  |  |
| 32 | Q. It is | s the process of identifying            |                              |                           |           |  |  |
|    | Ans.     |                                         |                              |                           |           |  |  |
|    |          | nalysis of Financial Statements (       | or Financial Statement Ana   | alysis)                   | 1         |  |  |
|    |          | ,                                       |                              | , ,                       |           |  |  |
|    |          |                                         |                              |                           |           |  |  |
|    |          |                                         |                              |                           | +         |  |  |

67/5/3

Page **15** of **20** 

|    | Objectives of Analysis of Financial Statements (any two)                                      | 2         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 1) To assess the current profitability and operational efficiency of the firm as a whole as   |           |
|    | well as its different departments so as to judge the financial health of the firm.            |           |
|    | 2) To ascertain the relative importance of different components of the financial position of  |           |
|    | the firm.                                                                                     |           |
|    | 3) To identify the reasons for change in the profitability/financial position of the firm.    |           |
|    | 4) To judge the ability of the firm to repay its debt and assessing the short-term as well as | = 3       |
|    | the long-term liquidity position of the firm.                                                 | marks     |
| 33 | (a) Q. From the following information, calculate                                              |           |
|    | Ans.                                                                                          |           |
|    | Inventory Turnover Ratio = Cost of Revenue from Operations                                    |           |
|    | Revenue from Operations = ₹ 10,00,000                                                         |           |
|    | Gross profit = 20% of Revenue from Operations                                                 |           |
|    | = 20% of 10,00,000                                                                            |           |
|    | = ₹ 2,00,000 <b>(1/2)</b>                                                                     |           |
|    | Cost of Revenue from Operations = Revenue from Operations – Gross Profit                      |           |
|    | = 10,00,000 - 2,00,000                                                                        |           |
|    | = ₹ 8,00,000 <b>(1)</b>                                                                       |           |
|    | Now, Inventory Turnover Ratio = 4 times                                                       |           |
|    | 4 = 8,00,000                                                                                  |           |
|    | Average Inventory                                                                             |           |
|    | Average Inventory = ₹ 2,00,000 (1/2)                                                          |           |
|    | Average Inventory = Opening Inventory + Closing Inventory                                     |           |
|    | 2,00,000 = 1/4 Closing Inventory + Closing Inventory 2                                        |           |
|    | 4,00,000 = 1/4 Closing Inventory + Closing Inventory                                          |           |
|    | 4,00,000 = 5/4 Closing Inventory                                                              |           |
|    | Closing Inventory = ₹ 3,20,000                                                                |           |
|    |                                                                                               | 4         |
|    | Opening Inventory = 1/4 x 3,20,000<br>= ₹ 80,000(1/2)                                         | marks     |
|    | <u>OR</u>                                                                                     | <u>OR</u> |
|    | (b) Q Debt-Equity Ratio of Z Ltd. is                                                          |           |
|    | Ans                                                                                           |           |
|    | Allo                                                                                          |           |

67/5/3

Page **16** of **20** 

| S.N. Effect on Ratio Reason                       |                              |                      |                           |                         |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| I Decline Decrease in Debt and Increase in Equity |                              |                      |                           |                         | х 8        |
| li                                                | No Change                    |                      | t and No change in Equity | 1                       |            |
| lii                                               | Decline                      |                      | and No change in Equity   |                         | = 4        |
| iv                                                | No Change                    | No change in Deb     | t and No change in Equity | 1                       | mai        |
| Q. Read<br>Ans.                                   | the following hypo           | othetical text and a | nswer the questions       |                         |            |
| Dr.                                               |                              | Machin               | ery Account               | Cr.                     |            |
| Particul                                          | ars                          | Amount (₹)           | Particulars               | Amount (₹)              |            |
| To Balai                                          | nce b/d                      | 20,00,000            | By Accumulated            |                         |            |
|                                                   |                              |                      | Depreciation A/c          | 20,000                  | 1          |
|                                                   | ement of P/L (gain)          | 30,000               | By Bank A/c (sale)        | 4,10,000                |            |
| To Bank                                           | x A/c (purchase)             | 12,00,000            | By Balance c/d            | 28,00,000               |            |
|                                                   |                              | 32,30,000            |                           | 32,30,000               |            |
|                                                   |                              |                      |                           |                         | +          |
| Dr.                                               |                              | •                    | ciation on Machinery Acc  |                         |            |
| Particul                                          |                              | Amount (₹)           | Particulars               | Amount (₹)              |            |
|                                                   | hinery A/c                   | 20,000               | By Balance b/d            | 60,000                  | 4 /2       |
| To Balaı                                          | nce c/d                      | 90,000               | By Depreciation A/c       | 50,000                  | 1/2        |
|                                                   |                              | 1,10,000             |                           | 1,10,000                |            |
|                                                   |                              | Cook Flour from In-  |                           |                         | +          |
| Particu                                           |                              | Cash Flow from Inv   | vesting Activities        | A 0 (₹ )                |            |
|                                                   |                              |                      |                           | Amount (₹)              |            |
|                                                   | ase of Machinery f Machinery |                      |                           | (12,00,000)<br>4,10,000 |            |
|                                                   | ish used in investin         | g activities         |                           | (7,90,000)              | 1 1/2      |
| ivet ca                                           | isii useu iii iiivestiii     | g activities         |                           | (7,30,000)              |            |
|                                                   |                              | Cash Flow from Fi    | nancing Activities        |                         | +          |
| Particu                                           | lars                         |                      |                           | Amount (₹)              |            |
| -                                                 | nption of 11% Debe           | entures              |                           | (20,00,000)             |            |
|                                                   | •                            | of 11% Debenture     | S                         | (2,00,000)              |            |
|                                                   | st Paid on 11% Deb           |                      |                           | (5,50,000)              | 1.         |
| Issue o                                           | of equity share cap          | ital                 |                           | 30,00,000               | 1 +        |
| Divide                                            | nd paid on Equity S          | Shares               |                           | (3,00,000)              | T1 +       |
| Net ca                                            | sh used in financin          | g activities         |                           | (50,000)                | 71         |
| Note – If                                         | an examinee has p            | orepared Machiner    | y Disposal Account, due o | redit is to be given.   | = 6<br>mai |

67/5/3 Page 17 of 20





|    | PART B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | OPTION – II  (COMPUTERISED ACCOUNTING)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 27 | (a) Q. Which of these                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>mark                  |
|    | Ans. (B) Value-when-false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|    | <u>OR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>OR</u>                  |
|    | (b) Q. How many blank worksheets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                          |
|    | Ans. (A) Three                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mark                       |
|    | Alls. (A) Tillee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 28 | (a) Q. Maximum number of characters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                          |
|    | <b>Ans</b> . (C) 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mark                       |
|    | <u>OR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>OR</u>                  |
|    | (b) Q. Which one of the following command                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mark                       |
|    | Ans. (A) Undo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 29 | Q. Codes comprising of alphabets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|    | Ans. (D) Mnemonic Codes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>mark                  |
| 30 | Q. Which of the following is not the advantage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|    | Ans. (D) Cannot summarise large amount of data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>mark                  |
| 31 | Q. Explain the following sub systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|    | Ans.  (a) Purchase and Accounts payable Sub-system:  It deals with the purchase and payments to the creditors. It provides for ordering of goods, sorting of purchase expenses and payment to the creditors. It also generates periodic reports about the performance of suppliers, payment schedule and position of the creditors.  (b) Costing Sub-System  It deals with the ascertainment of cost of goods produced. It has linkages with other accounting sub-systems for obtaining the necessary information about cost of material, labour and other expenses. this system generates information about changes in the cost that takes place during the period under review. | 1 ½ x<br>2<br>= 3<br>marks |
| 32 | Q. Give the meaning of "Cell reference"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|    | Ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |

67/5/3 Page 18 of 20

|       | <ul> <li>Cell reference</li> <li>A cell reference identifies the location of a<br/>and is also referred as a cell address. Cell re<br/>charts, other Excel Commands and also ref</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eferences are used in formulas, functions,                                                                                                                                                                                                 | 1                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       | Relative cell Reference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Absolute cell Reference                                                                                                                                                                                                                    | _                               |
|       | By default cell reference is relative which means that as a formula or function is copied and pasted to other cells the cell references in the formula or function change to reflect the new location.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Absolute cell reference consists of the column letter and row number surrounding by dollar (\$) signs. It is used when we want a cell reference to stay fixed on specific cell, which means that when a formula or function do not change. | 2                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | = 3                             |
| 33 (a | ) Q. Define Accounting cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | marks                           |
|       | <ul> <li>Ans.</li> <li>Accounting Cycle</li> <li>Accounting Cycle means the process involved communicating the information.</li> <li>The basic phases of the cycle are as follows:</li> <li>Business transactions are analysed</li> <li>The transactions are recorded in the journe</li> <li>Journal entries are posted to the ledger accounts are reviewed and the necessary accounts are posted in the ledger to precede the Adjustments are posted in the ledger to precede Account</li> <li>Financial statements are prepared from balancing the accounts</li> </ul> | al<br>counts<br>adjustments made.<br>epare adjusted trial balance.<br>the Balance Sheet and Profit and Loss                                                                                                                                | 1/2<br>+<br>3 ½<br>= 4<br>marks |
|       | <u>OR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            | <u>OR</u>                       |
| (b    | ) Q. Explain the meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|       | Ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|       | Password Security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|       | Password is widely accepted security contro<br>authorised person can access the data. It en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | 2                               |
|       | encoding format of storage and offers acces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · .                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | +                               |
|       | Data Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the second state of the test section is the                                                                                                                                                                                            | 2                               |
|       | Audit feature of accounting software provid<br>in order to keep track of unauthorised acces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | -                               |
|       | the correctness of the entries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s to the database. It's an addition                                                                                                                                                                                                        | = 4<br>marks                    |

67/5/3 Page 19 of 20



| 34 | Q. Name t   | he error which appears                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | Ans.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|    | The         | e error is known as REF! Error.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                 |
|    | Thi         | s error is corrected by:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                 |
|    | (i)<br>(ii) | <ul> <li>Click the cell that displays the error, click the button that appears and then click Show Calculations Steps if it appears.</li> <li>Review the following possible causes and solutions:</li> <li>Deleting cells referred to by other formulas, or pasting moved cells over cells referred to by other formulas.</li> <li>Change the formulas, or restore the cells on the worksheet by clicking undo immediately after we delete or paste the cells.</li> <li>Using an object-linking and Embedding (OLE) link to a program that is not running.</li> <li>Start the program.</li> <li>Linking to a Dynamic Data Exchange (DDE) topic such as "system" that is not available.</li> </ul> | 5<br>= 6<br>marks |
|    |             | <ul> <li>Make sure that we are using the correct DDE topic.</li> <li>Running a macro that enters a function that returns # REF!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |